

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012020-215379  
CG-DL-E-13012020-215379

**असाधारण**  
**EXTRAORDINARY**  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**  
**प्राधिकार से प्रकाशित**  
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 148]  
No. 148]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2020/पौष 20, 1941  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2020/PAUSHA 20, 1941

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2020

**का.आ. 158(अ).**—केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2882(अ), तारीख 08 अगस्त, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161 के 79.850 कि.मी. से 134.650 कि.मी. एवं 135.582 कि.मी. से 136.118 कि.मी. (सन्गारेड्डी - नांदेड़ - अकोला सेक्शन) तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 21 अगस्त, 2019 को "साक्षी (तेलुगु)" और "हंस इंडिया (अंग्रेजी)" में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161 के 79.850 कि.मी. से 134.650 कि.मी. एवं 135.582 कि.मी. से 136.118 कि.मी. (सन्नारेड्डी – नांदेड-अकोला सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण:

| राज्य का नाम: तेलंगाना |                         | जिले का नाम: कामारेड्डी |                 |                                  |                                                                  |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| क्रमिक संख्या          | सर्वेक्षण संख्या        | भूमि का प्रकार          | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम                               |
| 1                      | 2                       | 3                       | 4               | 5                                | 6                                                                |
|                        | तालुक का नाम: बिचकुण्डा |                         |                 |                                  |                                                                  |
|                        | गांव का नाम: फतहलापुर   |                         |                 |                                  |                                                                  |
| 1                      | 123                     | निजी                    | ड्राई           | 0.0809399                        | 1) डॉ. भीमराव S/o. डोंडिबा , 2) बसवराज पटेल S/o. मारुति रओ (१२३) |
| 2                      | 123                     | निजी                    | ड्राई           | 0.536227                         | भीमराव S/o. मारुति रओ (१२३)                                      |
| 3                      | 123                     | निजी                    | ड्राई           | 0.4148175                        | 1) बसवराज पटेल S/o. मारुति रओ , 2) भीमराव S/o. मारुति रओ (१२३)   |
| 4                      | 127                     | निजी                    | ड्राई           | 1.1635125                        | नगुबाई W/o. मादव रओ (१२७)                                        |
| 5                      | 127                     | निजी                    | ड्राई           | 0.3541125                        | शांता बाई W/o. लक्समन                                            |

|    |     |      |       |           |                                                                                                              |
|----|-----|------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |      |       |           | (१२७)                                                                                                        |
| 6  | 127 | निजी | ड्राई | 0.060705  | भीमरेड्डी S/o. विट्टल रेड्डी<br>(१२७)                                                                        |
| 7  | 129 | निजी | ड्राई | 0.303525  | नागनाथ S/o. गंगाराम<br>(१२९)                                                                                 |
| 8  | 130 | निजी | ड्राई | 0.44517   | यादवराव S/o. ईरन्ना<br>(१३०)                                                                                 |
| 9  | 139 | निजी | ड्राई | 0.0057815 | लक्समन S/o. राजांना<br>(१३९)                                                                                 |
| 10 | 139 | निजी | ड्राई | 0.0115627 | सक.लिजबाबा S/o सहदुल्ला<br>(१३९)                                                                             |
| 11 | 139 | निजी | ड्राई | 0.0057815 | एसके. कलीम S/o. खामरुद्दीन<br>(१३९)                                                                          |
| 12 | 139 | निजी | ड्राई | 0.0057815 | सक.सलेम S/o अबूबकर<br>(१३९)                                                                                  |
| 13 | 139 | निजी | ड्राई | 0.0057815 | हनमंडलु S/o. राजांना<br>(१३९)                                                                                |
| 14 | 139 | निजी | ड्राई | 0.0057815 | रामुलु S/o. राजांना<br>(१३९)                                                                                 |
| 15 | 269 | निजी | ड्राई | 0.0050587 | इराव्वा वैऑफ़ नारायणा<br>(२६९)                                                                               |
| 16 | 269 | निजी | ड्राई | 0.0050587 | अन्जाववा W/o रामुलु<br>(२६९)                                                                                 |
| 17 | 269 | निजी | ड्राई | 0.0101175 | नर्सव्वा W/o. परबन्ना<br>(२६९)                                                                               |
| 18 | 271 | निजी | ड्राई | 0.0093994 | हिंगु लक्समन S/o. राजम्मा , हिंगु यादव<br>रओ S/o. बाँलिंग<br>(२७१)                                           |
| 19 | 271 | निजी | ड्राई | 0.0093994 | रामुलु S/o. राजांना , हिंगु लक्समन S/o.<br>राजम्मा , हिंगु अन्जाववा W/o. हनमंडलु ,<br>इंदिरा बाई W/o. लक्समन |

|    |     |      |       |           |                                                                                                                       |
|----|-----|------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |      |       |           | (२७१)                                                                                                                 |
| 20 | 271 | निजी | ड्राई | 0.0093994 | हिंगु अन्जाववा W/o. हनमंडलु , यादव<br>रओ S/o. बॉलिंग , श्रीनाथ अग्रवाल S/o.<br>गल्प चौद अग्रवाल<br>(२७१)              |
| 21 | 271 | निजी | ड्राई | 0.0093994 | हिंगु यादव रओ S/o. बॉलिंग<br>(२७१)                                                                                    |
| 22 | 271 | निजी | ड्राई | 0.0140993 | श्रीनाथ अग्रवाल S/o. गल्प चौद अग्रवाल ,<br>कोलवार प्रतिभा W/o. शिवा कुमार<br>(२७१)                                    |
| 23 | 271 | निजी | ड्राई | 0.0148825 | कोलवार प्रतिभा W/o. शिवा कुमार ,<br>नागलक्मी W/o. श्रीनिवास<br>(२७१)                                                  |
| 24 | 271 | निजी | ड्राई | 0.0125326 | नागलक्मी W/o. श्रीनिवास , नर्सव्वा<br>W/o. परबन्ना<br>(२७१)                                                           |
| 25 | 271 | निजी | ड्राई | 0.0125326 | नर्सव्वा W/o. परबन्ना , लक्समववा W/o.<br>पोछवाई , शंकर S/o. नारायणा<br>(२७१)                                          |
| 26 | 271 | निजी | ड्राई | 0.0109661 | शंकर S/o. नारायणा , राधाबाई W/o.<br>हनमंडलु , पार्वती W/o. बसवराज ,<br>अन्जाववा W/o. रामुलु<br>(२७१)                  |
| 27 | 271 | निजी | ड्राई | 0.0093995 | अन्जाववा W/o. रामुलु , टाइटल डिस्प्यूट<br>(२७१)                                                                       |
| 28 | 271 | निजी | ड्राई | 0.0093995 | टाइटल डिस्प्यूट<br>(२७१)                                                                                              |
| 29 | 272 | निजी | ड्राई | 0.0244949 | अन्जाववा W/o. हनमंडलु , पार्वती W/o.<br>परमेश<br>(२७२)                                                                |
| 30 | 272 | निजी | ड्राई | 0.0071    | पार्वती W/o. परमेश , अन्जाववा W/o.<br>रामुलु , नर्सव्वा W/o. परबन्ना , इराव्वा<br>W/o. नारायणा , राधाबाई W/o. हनमंडलु |

|    |     |      |       |           |                                                                              |
|----|-----|------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |      |       |           | , पीरजी S/o. हनमंडलु<br>(२७२)                                                |
| 31 | 272 | निजी | ड्राई | 0.00213   | ममता W/o. कृष्णा<br>(२७२)                                                    |
| 32 | 272 | निजी | ड्राई | 0.00071   | माधव रओ S/o. श्रीनिवास<br>(२७२)                                              |
| 33 | 272 | निजी | ड्राई | 0.00071   | सैलु S/o. नारायणा<br>(२७२)                                                   |
| 34 | 272 | निजी | ड्राई | 0.00213   | पीरजी S/o. हनमंडलु<br>(२७२)                                                  |
| 35 | 272 | निजी | ड्राई | 0.001065  | पीरजी S/o. हनमंडलु<br>(२७२)                                                  |
| 36 | 272 | निजी | ड्राई | 0.001065  | पीरजी S/o. हनमंडलु<br>(२७२)                                                  |
| 37 | 272 | निजी | ड्राई | 0.001065  | पीरजी S/o. हनमंडलु<br>(२७२)                                                  |
| 38 | 273 | निजी | ड्राई | 0.303525  | राजमणि W/o. शिवाकांत<br>(२७३)                                                |
| 39 | 273 | निजी | ड्राई | 0.1719975 | एर्रोला भूदेवी W/o. गंगाबाई<br>(२७३)                                         |
| 40 | 273 | निजी | ड्राई | 0.1719975 | साइडबोर्ड S/o. पेद्दा साइडबोर्ड<br>(२७३)                                     |
| 41 | 277 | निजी | ड्राई | 0.0303525 | कम्मरि पार्वती बाई W/o. रामुलु<br>(२७७)                                      |
| 42 | 277 | निजी | ड्राई | 0.020235  | शंकर रओ S/o. हणमंत रओ<br>(२७७)                                               |
| 43 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0124301 | चन्द्रकला W/o. मडप्पा, नागमणि W/o.<br>शंकरप्पा, संगापपा W/o. मदप्पा<br>(२८३) |
| 44 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0124301 | संगापपा W/o. मदप्पा, ग्रामपंचायत लैंड<br>(२८३)                               |

|    |     |      |       |           |                                                                                                             |
|----|-----|------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0124301 | ग्रामपंचायत लैंड<br>(२८३)                                                                                   |
| 46 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0248602 | सविता W/o. रामगोड , सुनीता W/o.<br>परमेषाप्पा , परमेषाप्पा S/o. इरप्पा,<br>गइनी यादव रओ S/o. चन्दर<br>(२८३) |
| 47 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0124301 | ग्रामपंचायत लैंड , बालगोद S/o. रामगोड<br>(२८३)                                                              |
| 48 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0062151 | गइनी यादव रओ S/o. चन्दर , गइनी<br>चन्दर S/o. लग्माइआह<br>(२८३)                                              |
| 49 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0124301 | नागनाथ संऑफ़ लकमयह, रोड (सीसी)<br>(२८३)                                                                     |
| 50 | 283 | निजी | ड्राई | 0.006215  | गइनी राजू S/o. लग्माइआह , शिवव्वा<br>W/o. कम्पयः<br>(२८३)                                                   |
| 51 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0124301 | गइनी चन्दर S/o. लग्माइआह , गइनी<br>नागनाथ S/o. लग्माइआह , गइनी राजू<br>S/o. लग्माइआह<br>(२८३)               |
| 52 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0062151 | १) विट्टाबाई वैऑफ़ लालयह, २) धनराज<br>संऑफ़ लालयह<br>(२८३)                                                  |
| 53 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0062151 | चन्द्रववा W/o. गंगाधर , शांथववा W/o.<br>शंकर<br>(२८३)                                                       |
| 54 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0062151 | मारुति S/o. शंकर , अन्जाववा W/o.<br>रामुलु<br>(२८३)                                                         |
| 55 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0062151 | १) मारुति संऑफ़ मोगुलयह, २) लालयह<br>संऑफ़ पीरयह<br>(२८३)                                                   |
| 56 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0062151 | अन्जाववा W/o. रामुलु , गंगामणि W/o.<br>विजय                                                                 |

|    |     |      |       |           |                                                      |
|----|-----|------|-------|-----------|------------------------------------------------------|
|    |     |      |       |           | (२८३)                                                |
| 57 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0062151 | गंगामणि W/o. विजय , संगीता W/o. कुमार<br>(२८३)       |
| 58 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0062151 | संगीता W/o. कुमार , हनमववा W/o. विट्टल<br>(२८३)      |
| 59 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0062151 | हनमववा W/o. विट्टल , मारुति S/o. मोगुलैयह<br>(२८३)   |
| 60 | 283 | निजी | ड्राई | 0.006215  | लाला s/o. पीरा , सयववा W/o. विट्टल<br>(२८३)          |
| 61 | 283 | निजी | ड्राई | 0.006215  | सयववा W/o. विट्टल<br>(२८३)                           |
| 62 | 283 | निजी | ड्राई | 0.006215  | सयववा W/o. विट्टल , चन्द्रववा W/o. सांगा<br>(२८३)    |
| 63 | 283 | निजी | ड्राई | 0.006215  | चन्द्रववा W/o. सांगा , हनमंडलु S/o. रामुलु<br>(२८३)  |
| 64 | 283 | निजी | ड्राई | 0.006215  | हनमंडलु S/o. रामुलु , बलराज S/o. रामुलु<br>(२८३)     |
| 65 | 283 | निजी | ड्राई | 0.006215  | बलराज S/o. रामुलु , पीरा s/o. पीरा<br>(२८३)          |
| 66 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0124301 | पीरा s/o. पीरा , लक्ष्मीबाई W/o. लक्समन<br>(२८३)     |
| 67 | 283 | निजी | ड्राई | 0.006215  | लक्ष्मीबाई W/o. लक्समन , मारुति S/o. लक्समन<br>(२८३) |
| 68 | 283 | निजी | ड्राई | 0.006215  | शांथववा W/o शंकर , मारुति S/o शंकर<br>(२८३)          |
| 69 | 283 | निजी | ड्राई | 0.006215  | नागनाथ S/o लगमा                                      |

|    |     |      |       |           |                                                                                                                               |
|----|-----|------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |      |       |           | (२८३)                                                                                                                         |
| 70 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0124301 | १) शिवव्वा वैऑफ़ कंपयह, २) श्रीदेवी वैऑफ़ यादव राव, ३) चंद्रव्वा वैऑफ़ गंगाधर<br>(२८३)                                        |
| 71 | 283 | निजी | ड्राई | 0.006215  | हनुमान टेम्पल<br>(२८३)                                                                                                        |
| 72 | 283 | निजी | ड्राई | 0.006215  | मारुति S/o. लक्समन, नागनाथ S/o. लग्माइआह<br>(२८३)                                                                             |
| 73 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0124301 | रोड (CC)<br>(२८३)                                                                                                             |
| 74 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0559353 | रोड (की की), सरुबाई W/o. बलैयह, बीमा S/o. नगयाह, बेगारी यादव रओ s/o. लाला, हनमववा W/o. मोगुलैयह, वित्ताबाई W/o. लाला<br>(२८३) |
| 75 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0062151 | १) धनराज संऑफ़ लालयह, २) शंकर संऑफ़ मोगुलयह<br>(२८३)                                                                          |
| 76 | 283 | निजी | ड्राई | 0.0062151 | १) शंकर संऑफ़ मोगुलयह, २) चंदर संऑफ़ शिवराम<br>(२८३)                                                                          |
| 77 | 283 | निजी | ड्राई | 0.006215  | १) अमीनाबि वैऑफ़ मोहम्मद साब, २) खजामिया संऑफ़ बंदे आलीसाब<br>(२८३)                                                           |
| 78 | 283 | निजी | ड्राई | 0.006215  | १) चंदर संऑफ़ शिवराम, २) अमीनाबि वैऑफ़ मोहम्मद साब<br>(२८३)                                                                   |
| 79 | 283 | निजी | ड्राई | 0.006215  | खजामिया संऑफ़ बंदे अलिसब<br>(२८३)                                                                                             |
| 80 | 283 | निजी | ड्राई | 0.006215  | १) खजामिया संऑफ़ बंदे अलिसाब, २) हनुमान मंदिर                                                                                 |

|    |                                          |      |     |           |                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------|------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                          |      |     |           | (२८३)                                                                                                                                                    |
| 81 | 283                                      | निजी | झाई | 0.006215  | हनुमान टेम्पल, मचकुरी रामुलु S/o. शिवराम (२८३)                                                                                                           |
| 82 | 283                                      | निजी | झाई | 0.006215  | हनुमान मंदिर (२८३)                                                                                                                                       |
| 83 | 283                                      | निजी | झाई | 0.006215  | रोड (CC) (२८३)                                                                                                                                           |
| 84 | 283                                      | निजी | झाई | 0.006215  | रोड (CC) (२८३)                                                                                                                                           |
| 85 | 283                                      | निजी | झाई | 0.0497203 | मचकुरी रामुलु S/o. शिवराम, मचकुरी चन्दर S/o. शिवराम, मचकुरी सैलु S/o. शिवराम, सक. अमजद S/o. महबूब सब, रफीक S/o. खाजा सब, शंकरप्पा S/o. वीरभद्रप्पा (२८३) |
|    | <b>गांव का नाम: कन्दर्पले</b>            |      |     |           |                                                                                                                                                          |
| 86 | 170                                      | निजी | झाई | 0.020235  | वदला सुधाकर S/o. शंकर (१७०)                                                                                                                              |
|    | <b>गांव का नाम: मलकपुर (कोडपगलपट्टी)</b> |      |     |           |                                                                                                                                                          |
| 87 | 40                                       | निजी | झाई | 0.0303525 | स. दीपावली W/o. आनंद कुमार (४०)                                                                                                                          |
| 88 | 41                                       | निजी | झाई | 0.020235  | ममीदी नारायणा S/o. बलराम (४१)                                                                                                                            |
| 89 | 41                                       | निजी | झाई | 0.0101175 | कुर्त्याला अम्बागढ़ S/o. हमगौड़ (४१)                                                                                                                     |
| 90 | 41                                       | निजी | झाई | 0.04047   | नरगौड़ S/o. वेंका गौड़ (४१)                                                                                                                              |
| 91 | 41                                       | निजी | झाई | 0.020235  | कुर्त्याला सयव्वा W/o. पोछा गौड़ (४१)                                                                                                                    |
| 92 | 42                                       | निजी | झाई | 0.0303525 | चाँद पाशा S/o. इब्राहिम                                                                                                                                  |

|     |                             |        |     |           |                                                |
|-----|-----------------------------|--------|-----|-----------|------------------------------------------------|
|     |                             |        |     |           | (४२)                                           |
| 93  | 42                          | निजी   | झाई | 0.04047   | गंगाराम S/o. बग्गोन्डा<br>(४२)                 |
| 94  | 42                          | निजी   | झाई | 0.0303525 | नडपिला बडरगोंदा S/o. नरसागोंदा<br>(४२)         |
| 95  | 42                          | निजी   | झाई | 0.060705  | पद्मोला गंगाराम S/o. पर्वा<br>(४२)             |
| 96  | 48                          | निजी   | झाई | 0.020235  | कुर्त्याला सयन्वा W/o. पोछा गौड़<br>(४८)       |
| 97  | 60                          | निजी   | झाई | 0.020235  | गोरगंती सावित्री W/o. वेंकन्ना<br>(६०)         |
|     | <b>गांव का नाम: राजोला</b>  |        |     |           |                                                |
| 98  | 128                         | निजी   | झाई | 0.141645  | सैलु S/o. गंगाराम<br>(१२८)                     |
| 99  | 194                         | निजी   | झाई | 0.020235  | इन्द्रसेनारेड्डी S/o. नर्सिम्हारेड्डी<br>(१९४) |
|     | <b>गांव का नाम: शांतपुर</b> |        |     |           |                                                |
| 100 | 140                         | सरकारी | झाई | 3.5714775 | फारेस्ट लैंड<br>(१४०)                          |
| 101 | 142                         | सरकारी | झाई | 0.222585  | फारेस्ट लैंड<br>(१४२)                          |
| 102 | 143                         | सरकारी | झाई | 0.303525  | गोवट. लैंड ( शिखाम )<br>(१४३)                  |
| 103 | 336                         | निजी   | झाई | 0.0101175 | टाइटल डिस्पूट<br>(३३६)                         |
| 104 | 374                         | निजी   | झाई | 0.12141   | परबै W/o. चंदा<br>(३७४)                        |
| 105 | 388                         | निजी   | झाई | 0.0101175 | कुतुबुद्दीन S/o. नज़ीमुद्दीन<br>(३८८)          |
| 106 | 388                         | निजी   | झाई | 0.0101175 | टाइटल डिस्पूट<br>(३८८)                         |

|                                 |     |      |       |           |                                                                |
|---------------------------------|-----|------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 107                             | 393 | निजी | ड्राई | 0.12141   | टाइटल डिस्पूट<br>(३९३)                                         |
| 108                             | 396 | निजी | ड्राई | 0.04047   | येरकोंडा शांथववा W/o. गंगाराम<br>(३९६)                         |
| 109                             | 398 | निजी | ड्राई | 0.101175  | दीपचंद S/o. देवजी<br>(३९८)                                     |
| 110                             | 404 | निजी | ड्राई | 0.060705  | परवै W/o. चंदा<br>(४०४)                                        |
| <b>तालुक का नाम: जुह्वाल</b>    |     |      |       |           |                                                                |
| <b>गांव का नाम: खेमराज कळली</b> |     |      |       |           |                                                                |
| 1                               | 119 | निजी | ड्राई | 0.0101175 | देशराज S/o. धुळ्या राम<br>(११९)                                |
| 2                               | 119 | निजी | ड्राई | 0.0505875 | थिप्पा नायक S/o. लस्मया:<br>(११९)                              |
| 3                               | 119 | निजी | ड्राई | 0.141645  | मारुति रओ S/o. हणमंत रओ<br>(११९)                               |
| 4                               | 119 | निजी | ड्राई | 0.020235  | मारुति रओ S/o. हणमंत रओ<br>(११९)                               |
| 5                               | 119 | निजी | ड्राई | 0.08094   | राधेश्याम S/o. फखीर चंद , संकरी<br>केशववा W/o . पंडरी<br>(११९) |
| 6                               | 120 | निजी | ड्राई | 0.04047   | पाकली नागमणि W/o. गंगाराम<br>(१२०)                             |
| 7                               | 120 | निजी | ड्राई | 0.0151763 | पाकली रामुलु S/o. शिवन्ना<br>(१२०)                             |
| 8                               | 120 | निजी | ड्राई | 0.0151762 | पाकली गोविन्द S/o. रमन्ना<br>(१२०)                             |
| 9                               | 121 | निजी | ड्राई | 0.0101175 | बाबर जनि S/o. मौलाना<br>(१२१)                                  |
| 10                              | 134 | निजी | ड्राई | 0.0101175 | मोघुलैयह S/o. बलैयह<br>(१३४)                                   |

|    |                          |      |       |           |                                                                     |
|----|--------------------------|------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 11 | 134                      | निजी | ड्राई | 0.0101175 | धरु बाई W/o. धवलैयह<br>(१३४)                                        |
| 12 | 136                      | निजी | ड्राई | 0.060705  | बी . गंगाराम S/o. मोगुलजी ( य .<br>सरस्वती W/o. सिद्दीराम)<br>(१३६) |
| 13 | 136                      | निजी | ड्राई | 0.0910575 | बरतबाई W/o वशेत्ती<br>(१३६)                                         |
| 14 | 136                      | निजी | ड्राई | 0.060705  | बी .मारुति S/o हनमंथु<br>(१३६)                                      |
| 15 | 136                      | निजी | ड्राई | 0.16188   | बी .अन्जाइअह S/o. माणिक<br>(१३६)                                    |
| 16 | 89                       | निजी | ड्राई | 0.0101175 | उमाकांत रेड्डी S/o. विथा । रेड्डी<br>(८९)                           |
| 17 | 89                       | निजी | ड्राई | 0.04047   | राम रेड्डी S/o. शंकर रेड्डी<br>(८९)                                 |
| 18 | 97                       | निजी | ड्राई | 0.08094   | सौदागर गंगाराम S/o. सालोजी<br>(९७)                                  |
| 19 | 97                       | निजी | ड्राई | 0.0303525 | तोता नदीपि मोगुलैयह<br>(९७)                                         |
| 20 | 98                       | निजी | ड्राई | 0.0101175 | भगा रेड्डी S/o. राजा रेड्डी<br>(९८)                                 |
| 21 | 98                       | निजी | ड्राई | 0.0050588 | साई रेड्डी s/o. शंकर रेड्डी<br>(९८)                                 |
| 22 | 98                       | निजी | ड्राई | 0.0050588 | चन्द्रकला W/o. भूम गोंडा<br>(९८)                                    |
|    | <b>गांव का नाम: कोलस</b> |      |       |           |                                                                     |
| 23 | 100                      | निजी | ड्राई | 0.1917177 | महादेव मंदिर-इनाम (बसवलिंगा शिवा<br>चारी संऑफ़ बसलिंगप्पा)<br>(१००) |
| 24 | 54                       | निजी | ड्राई | 0.1112925 | संतोष अग्रवाल संऑफ़ हरिनारायण<br>(५४)                               |

|    |      |      |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------|------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 54   | निजी | ड्राई | 0.0252938 | जमुना बाई वैऑफ़ रामसिंह<br>(५४)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26 | 54   | निजी | ड्राई | 0.0303525 | विक्रमसिंह संऑफ़ ठाकुरसिंह<br>(५४)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27 | 54   | निजी | ड्राई | 0.0151763 | गाजीराम संऑफ़ नारायणा<br>(५४)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28 | 67/2 | निजी | ड्राई | 0.0505875 | एसेशुहिनी वैऑफ़ अनूपकुमार<br>(६७/२)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29 | 67/3 | निजी | ड्राई | 0.0101175 | बिचकुण्डा लक्ष्मी वैऑफ़ रामकृष्ण<br>(६७/३)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30 | 68   | निजी | ड्राई | 0.12141   | अनुशोल संऑफ़ अनूप कुमार<br>(६८)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31 | 68   | निजी | ड्राई | 0.12141   | बिचकुण्डा लक्ष्मी वैऑफ़ रामकृष्ण<br>(६८)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 32 | 68   | निजी | ड्राई | 0.0708225 | बातिनी शंकर संऑफ़ आशन्न<br>(६८)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33 | 69   | निजी | ड्राई | 0.1441744 | ठाकुर योगिता सिंह संऑफ़ जयपाल सिंह<br>(६९)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34 | 69   | निजी | ड्राई | 0.0480581 | पुरुषोत्तम अग्रवाल संऑफ़ श्रीनिवास<br>अग्रवाल<br>(६९)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35 | 69   | निजी | ड्राई | 0.0101175 | अनुशोल संऑफ़ अनूप कुमार<br>(६९)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 36 | 70   | निजी | ड्राई | 0.0455288 | बुद्धि लक्ष्मन संऑफ़ गंगन्न<br>(७०)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37 | 70   | निजी | ड्राई | 0.101175  | १) जंगम संगव्वा वैऑफ़ इरयह, २) एसके.<br>शेडूल संऑफ़ अली, ३) पकड़े धरम संऑफ़<br>मेघा, ४) वैट वैट संजय संऑफ़ राजेश्वर<br>राव, ५) गंगाराम संऑफ़ बालयह, ६)<br>एसके.रसूल मिया संऑफ़ हफीज़ मिया, ७)<br>कुर्मा शिवगोंडा संऑफ़ लैमागोंदा, ८)<br>एसके. अख्तर संऑफ़ सिखन, ९) अहमद बी<br>वैऑफ़ यूसुफ़<br>(७०) |
| 38 | 70   | निजी | ड्राई | 0.0101175 | कौसल्या बाई वैऑफ़ जनार्दनराव<br>(७०)                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |      |      |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------|------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 70   | निजी | ड्राई | 0.0151763 | मोतीलाल संऑफ़ नगुण<br>(७०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40 | 74   | निजी | ड्राई | 0.0303525 | मीदारी गंगाराम संऑफ़ पोछान्न<br>(७४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41 | 74   | निजी | ड्राई | 0.0910575 | बुड्डे विट्टल संऑफ़ गंगाराम<br>(७४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 42 | 74   | निजी | ड्राई | 0.0556463 | थातीपल्ली हनमन्ना वैऑफ़ रामगौड़<br>(७४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 43 | 74   | निजी | ड्राई | 0.0252938 | एन.काशीनाथ संऑफ़ नारसिंगराव<br>(७४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44 | 74   | निजी | ड्राई | 0.020235  | मडप्पा संऑफ़ नागप्पा<br>(७४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 45 | 75   | निजी | ड्राई | 0.44517   | १) ए. शंकर राव संऑफ़ बसवंतराव, २) मोइनुद्दीन संऑफ़ ललहमद, ३) मारुति संऑफ़ सिद्दी रामुलु, ४) आवुटी मारुति संऑफ़ विट्टल, ५) शदलसब संऑफ़ मासूमालि, ६) शब्बीर सब संऑफ़ सायीद सब, ७) दौलतराव संऑफ़ गोविंद राव, ८) एडीजी देता गौड़ संऑफ़ नारा गौड़, ९) बाबू संऑफ़ अब्बास मिया, १०) खाजा मुहम्मद संऑफ़ महबूब साब, ११) कमरबी वैऑफ़ फ़कीर अहम्मद, १२) अनिशेट्टी शैलजा वैऑफ़ नागनाथ, १३) सरदार बी वैऑफ़ यदुल्लाह, १४) गौसिया बी वैऑफ़ फ़कीर साब, १५) बिजन बी वैऑफ़ मेहबूब साब, १६) सय्यद साब संऑफ़ गोरेसाब, १७) मालन बी वैऑफ़ सुल्तान साब, १८) पकड़े रंजीत संऑफ़ नारायणा, १९) पाकला वेंकटेश संऑफ़ शंकर, २०) पाकला रमेश संऑफ़ शंकर<br>(७५) |
| 46 | 75   | निजी | ड्राई | 0.0708225 | हरी & दबा ओठर्स<br>(७५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 47 | 84/2 | निजी | ड्राई | 0.0303525 | बुड्डे हनमंडलु संऑफ़ लक्ष्मायह<br>(८४/२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |      |      |       |           |                                                                      |
|----|------|------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 48 | 84/2 | निजी | ड्राई | 0.020235  | बागवान मुनीरा बेगम वैऑफ मोहम्मद<br>(८४/२)                            |
| 49 | 84/2 | निजी | ड्राई | 0.0303525 | शशिकला वैऑफ लक्समन<br>(८४/२)                                         |
| 50 | 84/2 | निजी | ड्राई | 0.0126469 | मालिपटल बंडप्पा संऑफ इरप्पा<br>(८४/२)                                |
| 51 | 84/2 | निजी | ड्राई | 0.0126469 | जुब्रे संजीव संऑफ विट्टल राव<br>(८४/२)                               |
| 52 | 84/2 | निजी | ड्राई | 0.0126469 | अगडे विश्वनाथराव संऑफ शिवराम<br>(८४/२)                               |
| 53 | 84/2 | निजी | ड्राई | 0.012647  | अक्कमपल्ली संजयराओ S/o. नारायणराव<br>(८४/२)                          |
| 54 | 84/3 | निजी | ड्राई | 0.0379406 | नागप्पा संऑफ हनमयह<br>(८४/३)                                         |
| 55 | 84/3 | निजी | ड्राई | 0.0151763 | बुट्टे काशीराम संऑफ नर्सन<br>(८४/३)                                  |
| 56 | 84/3 | निजी | ड्राई | 0.0151763 | कलावती वैऑफ वेक्टराव<br>(८४/३)                                       |
| 57 | 84/3 | निजी | ड्राई | 0.0227644 | डी. चंद्रकांत संऑफ मडप्पा<br>(८४/३)                                  |
| 58 | 85   | निजी | ड्राई | 0.2728557 | ब्राह्मण अचारी मंदिर-इनैमलैंड (टी.<br>अनंतराव संऑफ वेक्टराव)<br>(८५) |
| 59 | 92   | निजी | ड्राई | 0.12141   | पंदिरी हंमतेरेड्डी संऑफ लिंगारेड्डी<br>(९२)                          |
| 60 | 93   | निजी | ड्राई | 0.0708225 | कुलकर्णी श्रीकांत संऑफ जनार्दनराव<br>(९३)                            |
| 61 | 94   | निजी | ड्राई | 0.222585  | जिन्ना बलराम संऑफ परबन्न<br>(९४)                                     |
| 62 | 94   | निजी | ड्राई | 0.0505875 | यातकारी विजयलक्ष्मी वैऑफ मोगुलयह<br>(९४)                             |
| 63 | 94   | निजी | ड्राई | 0.04047   | वाणी वैऑफ संजय कुमार<br>(९४)                                         |

|                            |     |      |       |           |                                                                    |
|----------------------------|-----|------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 64                         | 97  | निजी | ड्राई | 0.04047   | अंगड़े प्रकाश संऑफ़ नागनाथराव<br>(९७)                              |
| 65                         | 97  | निजी | ड्राई | 0.04047   | अंगड़े सुभाष संऑफ़ नागनाथराव<br>(९७)                               |
| 66                         | 97  | निजी | ड्राई | 0.04047   | अंगड़े संतोष संऑफ़ नागनाथराव<br>(९७)                               |
| 67                         | 98  | निजी | ड्राई | 0.020235  | मातम शिवलिंगप्पा संऑफ़ विश्वानथप्पा<br>(९८)                        |
| 68                         | 98  | निजी | ड्राई | 0.0101175 | मातम महंथप्पा संऑफ़ विश्वानथप्पा<br>(९८)                           |
| 69                         | 98  | निजी | ड्राई | 0.04047   | राजेश्वरी वैऑफ़ काशिनाथाप्पा<br>(९८)                               |
| 70                         | 98  | निजी | ड्राई | 0.0303525 | कुमारस्वामी संऑफ़ विश्वानथप्पा<br>(९८)                             |
| 71                         | 99  | निजी | ड्राई | 0.3541125 | महादेव मंदिर-इनाम (हवायाप्पा संऑफ़<br>बब्याप्पा)<br>(९९)           |
| <b>तालुक का नाम: मदनूर</b> |     |      |       |           |                                                                    |
| <b>गांव का नाम: मदनूर</b>  |     |      |       |           |                                                                    |
| 1                          | 262 | निजी | ड्राई | 0.0303525 | एम. वेंकटेश संऑफ़ रामुलु<br>(२६२)                                  |
| 2                          | 276 | निजी | ड्राई | 0.154332  | मल्लारी स्वामी संऑफ़ वेंकटेशम<br>(२७६)                             |
| 3                          | 276 | निजी | ड्राई | 0.1593105 | विजय0 वैऑफ़ दयानंद<br>(२७६)                                        |
| 4                          | 309 | निजी | ड्राई | 0.101175  | रामकृष्ण संऑफ़ बागन्न<br>(३०९)                                     |
| 5                          | 309 | निजी | ड्राई | 0.0101175 | गंगाराम संऑफ़ बागन्न<br>(३०९)                                      |
| 6                          | 32  | निजी | ड्राई | 0.141645  | १) कमलाबाई वैऑफ़ गंगाराम, २) बी.<br>शांतव्वा वैऑफ़ गंगाराम<br>(३२) |
| 7                          | 325 | निजी | ड्राई | 0.0050588 | पि. हनमंडलु संऑफ़ सैलु                                             |

|    |                           |        |       |           |                                         |
|----|---------------------------|--------|-------|-----------|-----------------------------------------|
|    |                           |        |       |           | (३२५ )                                  |
| 8  | 325                       | निजी   | ड्राई | 0.0050588 | पि. गंगाराम संऑफ़ सैलु<br>(३२५ )        |
| 9  | 33                        | निजी   | ड्राई | 0.0101175 | बालकिशन संऑफ़ एलप्पा<br>(३३ )           |
| 10 | 34                        | निजी   | ड्राई | 0.060705  | नवनीत संऑफ़ बलसिंघ<br>(३४ )             |
| 11 | 62                        | निजी   | ड्राई | 0.0026964 | कुलकर्णी भास्कर संऑफ़ अनंत राव<br>(६२ ) |
| 12 | 73                        | निजी   | ड्राई | 0.0505875 | हनमंडलु संऑफ़ नागन्न<br>(७३ )           |
| 13 | 74                        | निजी   | ड्राई | 0.020235  | हनमंडलु संऑफ़ नागन्न<br>(७४ )           |
| 14 | Road                      | सरकारी | ड्राई | 0.060705  | रोड<br>(रोड )                           |
|    | <b>गांव का नाम: माइनर</b> |        |       |           |                                         |
| 15 | 193                       | निजी   | ड्राई | 0.060705  | गिरीश S/o. विट्टल रओ<br>(१९३ )          |
| 16 | 193                       | निजी   | ड्राई | 0.1517625 | गोदावरी बाई W/o. मदवरो<br>(१९३ )        |
| 17 | 201                       | निजी   | ड्राई | 0.04047   | स . शिवन्ना S/o. वीरन्ना<br>(२०१ )      |
| 18 | 201                       | निजी   | ड्राई | 0.0050588 | म . नागेश S/o. अशांता<br>(२०१ )         |
| 19 | 201                       | निजी   | ड्राई | 0.0151763 | ए. गंगाराम S/o. दस्ताबाई<br>(२०१ )      |
| 20 | 201                       | निजी   | ड्राई | 0.0025294 | ए. बलबोई S/o. दस्ताबाई<br>(२०१ )        |
| 21 | 201                       | निजी   | ड्राई | 0.0151763 | डी . लक्ष्मीबाई W/o. बापुररओ<br>(२०१ )  |
| 22 | 203                       | निजी   | ड्राई | 0.020235  | लक्ष्मी बाई W/o. विट्टल रओ              |

|    |      |      |       |           |                                    |
|----|------|------|-------|-----------|------------------------------------|
|    |      |      |       |           | (२०३)                              |
| 23 | 215  | निजी | ड्राई | 0.0151763 | बसवंतराओ S/o. हनमंत्रो<br>(२१५)    |
| 24 | 215  | निजी | ड्राई | 0.0151763 | सैलु S/o. नागाणा<br>(२१५)          |
| 25 | 216  | निजी | ड्राई | 0.0303525 | सक्कूबाई W/o. पोछबाई<br>(२१६)      |
| 26 | 216  | निजी | ड्राई | 0.0050588 | नारायणा S/o. भूमानना<br>(२१६)      |
| 27 | 220  | निजी | ड्राई | 0.020235  | प. मधु W/o. लाछना<br>(२२०)         |
| 28 | 220  | निजी | ड्राई | 0.020235  | प. चन्द्रववा W/o. हनमंथु<br>(२२०)  |
| 29 | 220  | निजी | ड्राई | 0.020235  | प. नरसाणा S/o. नागाणा<br>(२२०)     |
| 30 | 234  | निजी | ड्राई | 0.0303526 | मद. अवीद्शा S/o. मन्नांश<br>(२३४)  |
| 31 | 238  | निजी | ड्राई | 0.0303525 | गोदावरी बाई W/o. मदवरो<br>(२३८)    |
| 32 | 245  | निजी | ड्राई | 0.060705  | हनमंथु S/o. बलबोई<br>(२४५)         |
| 33 | 248  | निजी | ड्राई | 0.020235  | नागाणा S/o. सैलु<br>(२४८)          |
| 34 | 253  | निजी | ड्राई | 0.0303525 | शिवबाई S/o. चिन्नाबाई<br>(२५३)     |
| 35 | 253  | निजी | ड्राई | 0.0505875 | सायबाई S/o. सायबाई<br>(२५३)        |
| 36 | 262  | निजी | ड्राई | 0.0252938 | व्. नागेश S/o. पेदा दशरथ<br>(२६२)  |
| 37 | 38/2 | निजी | ड्राई | 0.374347  | माथिनेनी लक्ष्मीबाई W/o. विट्टल रओ |

|    |                              |        |     |           |                                                                         |
|----|------------------------------|--------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |        |     |           | (३८/२)                                                                  |
| 38 | 46/11                        | सरकारी | झाई | 0.0025293 | ए. लिंगवा वैऑफ़ रामुलु<br>(४६/११)                                       |
| 39 | 46/12                        | सरकारी | झाई | 0.0328819 | इरयह S/o. कड़ा, ए. लिंगाववा W/o.<br>रामुलु<br>(४६/१२)                   |
| 40 | 46/12                        | सरकारी | झाई | 0.0328819 | मण्णायह संऑफ़ कड़यह, हल्लयह संऑफ़<br>कड़यह, इरयह संऑफ़ कड़यह<br>(४६/१२) |
| 41 | 46/12                        | सरकारी | झाई | 0.0303525 | १) नर्सयह संऑफ़ कड़ायह, २) मण्णायह<br>संऑफ़ कड़ायह<br>(४६/१२)           |
| 42 | 46/12                        | सरकारी | झाई | 0.0328819 | ए. लिंगवा वैऑफ़ रामुलु<br>(४६/१२)                                       |
| 43 | 65/3                         | निजी   | झाई | 0.0303525 | नागनाथ S/o. हनमंथु<br>(६५/३)                                            |
| 44 | 65/3                         | निजी   | झाई | 0.060705  | शिवराज S/o. दुलप्पा<br>(६५/३)                                           |
| 45 | 65/3                         | निजी   | झाई | 0.0101175 | लक्समी बाई W/o. हनमंथु<br>(६५/३)                                        |
| 46 | 73                           | निजी   | झाई | 0.0303525 | गोविन्द S/o. लक्समन<br>(७३)                                             |
|    | <b>गांव का नाम: रुसेगाओं</b> |        |     |           |                                                                         |
| 47 | 18                           | निजी   | झाई | 0.060705  | लक्समन संऑफ़ सायन्ना<br>(१८)                                            |
| 48 | 18                           | निजी   | झाई | 0.0708225 | मारुति संऑफ़ वीरायह<br>(१८)                                             |
| 49 | 18                           | निजी   | झाई | 0.12141   | मारुबाई संऑफ़ मारुति<br>(१८)                                            |
| 50 | 18                           | निजी   | झाई | 0.0708225 | सयव्वा वैऑफ़ हनमंथु<br>(१८)                                             |

|                                   |    |      |       |           |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----|------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51                                | 18 | निजी | ड्राई | 0.0708225 | आदर्श<br>(१८)                                                                                                                                    |
| 52                                | 71 | निजी | दी    | 0.1720001 | १) हणमंत राव संऑफ़ शिवराम २) लक्ष्मी<br>बाई वैऑफ़ संग्राम ३) प्रभु संऑफ़ नागन्न<br>४) लिंगाराम संऑफ़ लाचेबु ५) अब्दुल<br>सैयद संऑफ़ सुकृ<br>(७१) |
| 53                                | 75 | निजी | ड्राई | 0.055925  | शिवराजपटेल संऑफ़ रेवंथ पटेल<br>(७५)                                                                                                              |
| 54                                | 75 | निजी | ड्राई | 0.0401513 | जादव अशोक संऑफ़ नीवर्थी<br>(७५)                                                                                                                  |
| 55                                | 75 | निजी | ड्राई | 0.0573591 | ख्यातवार सयव्वा वैऑफ़ चिन्ना गंगाराम<br>(७५)                                                                                                     |
| 56                                | 75 | निजी | ड्राई | 0.0272456 | ख्यातवार विट्टल संऑफ़ नर्सव्वा<br>(७५)                                                                                                           |
| 57                                | 75 | निजी | ड्राई | 0.001434  | कोडेचेरा रोड<br>(७५)                                                                                                                             |
| <b>गांव का नाम: वाड़ी फतहेपुर</b> |    |      |       |           |                                                                                                                                                  |
| 58                                | 31 | निजी | ड्राई | 0.343995  | वामकारी बाबू राव संऑफ़ मोनाजी<br>(३१)                                                                                                            |
| 59                                | 31 | निजी | ड्राई | 0.3338775 | वामकारी कमला बाई संऑफ़ बाबूराव<br>(३१)                                                                                                           |
| 60                                | 31 | निजी | ड्राई | 0.3338775 | वामकारी अशोक संऑफ़ बाबूराव<br>(३१)                                                                                                               |
| 61                                | 31 | निजी | ड्राई | 0.343995  | वामकारी प्रकाश संऑफ़ बाबू राव<br>(३१)                                                                                                            |
| 62                                | 31 | निजी | ड्राई | 0.333878  | १) वामकारी स्वपना डॉटरऑफ़ बाबूराव,<br>२) वामकारी अशोक संऑफ़ बाबूराव<br>(३१)                                                                      |
| 63                                | 32 | निजी | ड्राई | 0.4755225 | ठाकुर प्रमोद कुमार संऑफ़ प्रेम चाँद<br>(३२)                                                                                                      |
| <b>तालुक का नाम: निजमसागर</b>     |    |      |       |           |                                                                                                                                                  |
| <b>गांव का नाम: ब्राह्मणपालले</b> |    |      |       |           |                                                                                                                                                  |

|                                        |     |        |       |           |                                                       |
|----------------------------------------|-----|--------|-------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 1                                      | 242 | निजी   | ड्राई | 1.03198   | रिजर्व्ड फारेस्ट<br>(२४२)                             |
| <b>गांव का नाम: नरसिंगरायपल्ले</b>     |     |        |       |           |                                                       |
| 2                                      | 22  | निजी   | ड्राई | 0.0359772 | वडियाला पुष्पलता वैऑफ़ दामोदर रेड्डी<br>(२२)          |
| 3                                      | 22  | निजी   | ड्राई | 0.0449715 | वडियाला दामोदर रेड्डी संऑफ़ नरसिंहा<br>रेड्डी<br>(२२) |
| 4                                      | 27  | सरकारी | ड्राई | 0.020235  | सदुपल्ली श्यम्म वैऑफ़ साया गौड़<br>(२७)               |
| 5                                      | 27  | सरकारी | ड्राई | 0.020235  | सदुपल्ली साया गौड़ संऑफ़ दुर्गा गौड़<br>(२७)          |
| 6                                      | 27  | सरकारी | ड्राई | 0.020235  | सदुपल्ली शंकर गौड़ S/o. साया गौड़<br>(२७)             |
| <b>तालुक का नाम: पेद्दा कोडपगल</b>     |     |        |       |           |                                                       |
| <b>गांव का नाम: चिन्ना तक्कड़पल्ले</b> |     |        |       |           |                                                       |
| 1                                      | 42  | निजी   | ड्राई | 0.020235  | ज्योति वैऑफ़ परधाल<br>(४२)                            |
| 2                                      | 61  | निजी   | ड्राई | 0.0505875 | आंदोल बाबू संऑफ़ रामगोडा<br>(६१)                      |
| 3                                      | 7   | निजी   | ड्राई | 0.020235  | मल्लेश संऑफ़ गलप्पा<br>(७)                            |
| 4                                      | 7   | निजी   | ड्राई | 0.101175  | अंजव्वा वैऑफ़ शंकर<br>(७)                             |
| <b>गांव का नाम: जगन्नाथपालले</b>       |     |        |       |           |                                                       |
| 5                                      | 11  | निजी   | ड्राई | 0.4552875 | बंसीलाल संऑफ़ जलम सिंह<br>(११)                        |
| 6                                      | 11  | निजी   | ड्राई | 0.2529375 | गुरुदास संऑफ़ जोरमल<br>(११)                           |
| 7                                      | 3   | निजी   | ड्राई | 0.0303525 | मोतीलाल संऑफ़ मोजीराम<br>(३)                          |
| 8                                      | 4   | निजी   | ड्राई | 0.0708225 | रुक्मिणीबाई वैऑफ़ येल्लूगोंडा<br>(४)                  |

|                                 |      |      |       |           |                                               |
|---------------------------------|------|------|-------|-----------|-----------------------------------------------|
| 9                               | 4    | निजी | ड्राई | 0.1517625 | सरस्वती बाई वैऑफ़ येल्लूगोंडा<br>(४)          |
| 10                              | 4    | निजी | ड्राई | 0.101175  | जी. मल्लेश्वर संऑफ़ गंगाराम<br>(४)            |
| 11                              | 4    | निजी | ड्राई | 0.0505875 | जी. राजू संऑफ़ गंगाराम<br>(४)                 |
| 12                              | 5    | निजी | ड्राई | 0.0505875 | जी. चंदर संऑफ़ गंगाराम<br>(५)                 |
| <b>गांव का नाम: पेहा कोडपगल</b> |      |      |       |           |                                               |
| 13                              | 230  | निजी | ड्राई | 0.24282   | इसमुद्दीन संऑफ़ इस्माइल<br>(२३०)              |
| 14                              | 231  | निजी | ड्राई | 0.0708225 | जोशी श्रीधर राव संऑफ़ श्रीनिवास राव<br>(२३१)  |
| 15                              | 232  | निजी | ड्राई | 0.060705  | जंगम नागभुषणम संऑफ़ रामप्पा<br>(२३२)          |
| 16                              | 232  | निजी | ड्राई | 0.04047   | जंगम बसप्पा संऑफ़ कटप्पा<br>(२३२)             |
| 17                              | 233  | निजी | ड्राई | 0.1315275 | चिंताकिंदी थोटा लिंगबोई संऑफ़ सायबाई<br>(२३३) |
| 18                              | 260  | निजी | ड्राई | 0.020235  | जनार्दनरेड्डी संऑफ़ लिंगारेड्डी<br>(२६०)      |
| 19                              | 267  | निजी | वेट   | 0.060705  | एल.सुगुना वैऑफ़ थिरुमलरेड्डी<br>(२६७)         |
| 20                              | 286  | निजी | ड्राई | 0.060705  | पि. नागमणि वैऑफ़ अगम रेड्डी<br>(२८६)          |
| 21                              | 286  | निजी | ड्राई | 0.060705  | पि. अगमरेड्डी संऑफ़ भूमरेड्डी<br>(२८६)        |
| 22                              | 39   | निजी | ड्राई | 0.020235  | सुनीता वैऑफ़ नारायणा<br>(३९)                  |
| 23                              | 41/2 | निजी | ड्राई | 0.0505875 | बालव्वा वैऑफ़ देवयह<br>(४१/२)                 |
| 24                              | 41/2 | निजी | ड्राई | 0.0505875 | वीरेशम संऑफ़ रामुलु<br>(४१/२)                 |

|    |      |      |       |           |                                                |
|----|------|------|-------|-----------|------------------------------------------------|
| 25 | 48/2 | निजी | ड्राई | 0.101175  | लक्ष्मी वैऑफ बलराज<br>(४८/२)                   |
| 26 | 49/2 | निजी | ड्राई | 0.12141   | हणमंतरेड्डी संऑफ गणपतिरेड्डी<br>(४९/२)         |
| 27 | 49/2 | निजी | ड्राई | 0.1315275 | आगमनी वैऑफ गणपतिरेड्डी<br>(४९/२)               |
| 28 | 495  | निजी | बेट   | 0.0101175 | खाजा खान संऑफ हनीफ खान<br>(४९५)                |
| 29 | 495  | निजी | बेट   | 0.0101175 | अन्जाबाई संऑफ सायबाई<br>(४९५)                  |
| 30 | 502  | निजी | ड्राई | 0.0151763 | काररेड्डी सत्यव्वा वैऑफ बद्रयह<br>(५०२)        |
| 31 | 502  | निजी | ड्राई | 0.0151763 | चिंतामणि मोगुलयह संऑफ बालन्न<br>(५०२)          |
| 32 | 502  | निजी | ड्राई | 0.0101175 | कम्मरि पंडरी संऑफ मादयह<br>(५०२)               |
| 33 | 502  | निजी | ड्राई | 0.0101175 | कम्मरि कृष्णमूर्ति संऑफ नर्सिम्हाचारी<br>(५०२) |
| 34 | 502  | निजी | ड्राई | 0.0101175 | कम्मरि रामुलु संऑफ मादयह<br>(५०२)              |
| 35 | 54/2 | निजी | ड्राई | 0.101175  | गंगारेड्डी संऑफ रंगारेड्डी<br>(५४/२)           |
| 36 | 55/2 | निजी | ड्राई | 0.08094   | गइनी सयव्वा वैऑफ रमयह<br>(५५/२)                |
| 37 | 55/2 | निजी | ड्राई | 0.12141   | चिंताकिंदी बालाबोई संऑफ भूमाबाई<br>(५५/२)      |
| 38 | 59   | निजी | बेट   | 0.141645  | सांग नारायणा संऑफ मोगुलयह<br>(५९)              |
| 39 | 59   | निजी | बेट   | 0.20235   | संग अनाशयव्वा वैऑफ नारायणा<br>(५९)             |
| 40 | 60   | निजी | बेट   | 0.08094   | गंगाराम संऑफ रमयह<br>(६०)                      |
| 41 | 62   | निजी | बेट   | 0.020235  | नरसिमलु संऑफ रमयह<br>(६२)                      |

|                                   |     |      |       |           |                                                                      |
|-----------------------------------|-----|------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 42                                | 62  | निजी | वेट   | 0.020235  | बलराम संऑफ़ रमयह<br>(६२)                                             |
| 43                                | 62  | निजी | वेट   | 0.0101175 | बी.विट्टल संऑफ़ रमयह<br>(६२)                                         |
| 44                                | 63  | निजी | वेट   | 0.0050588 | बलराम संऑफ़ रमयह<br>(६३)                                             |
| 45                                | 63  | निजी | वेट   | 0.0050588 | नरसिमलु संऑफ़ रमयह<br>(६३)                                           |
| 46                                | 63  | निजी | वेट   | 0.0177056 | जी. विट्टल संऑफ़ रमयह<br>(६३)                                        |
| 47                                | 63  | निजी | वेट   | 0.0177056 | जी. काशीराम संऑफ़ रमयह<br>(६३)                                       |
| 48                                | 63  | निजी | वेट   | 0.0050588 | बी. विट्टल संऑफ़ रमयह<br>(६३)                                        |
| 49                                | 64  | निजी | वेट   | 0.0505875 | मोहनलाल संऑफ़ बदलसिंह<br>(६४)                                        |
| 50                                | 65  | निजी | ड्राई | 0.0708225 | ए.गोपाल संऑफ़ गंगाराम<br>(६५)                                        |
| 51                                | 65  | निजी | ड्राई | 0.111292  | हरिदास संऑफ़ सदा<br>(६५)                                             |
| 52                                | 65  | निजी | ड्राई | 0.212468  | चंदा संऑफ़ सदा<br>(६५)                                               |
| 53                                | 65  | निजी | ड्राई | 0.141645  | कम्मी बाई वैऑफ़ हरिलाल<br>(६५)                                       |
| <b>तालुक का नाम: पीतलम</b>        |     |      |       |           |                                                                      |
| <b>गांव का नाम: चिन्तकौंडापगल</b> |     |      |       |           |                                                                      |
| 1                                 | 737 | निजी | ड्राई | 0.0303525 | अन्नाराम रामुलु S/o. गंगाया:<br>(७३७)                                |
| 2                                 | 765 | निजी | ड्राई | 0.020235  | ज़.प. च.स स्कूल कम्पौंड वाल & आप ,<br>चकली केशय: S/o. बलैयह<br>(७६५) |

|                             |        |        |     |           |                                                       |
|-----------------------------|--------|--------|-----|-----------|-------------------------------------------------------|
| 3                           | 79     | निजी   | झाई | 0.020235  | टी .नारायणा रेड्डी S/o. रामरेड्डी<br>(७९ )            |
| 4                           | 80     | निजी   | झाई | 0.060705  | प .प्रवीण रेड्डी S/o. वेंकटरमरेड्डी<br>(८० )          |
| 5                           | 829    | निजी   | झाई | 0.0057813 | जिनना रामुलु s/o पपायः<br>(८२९ )                      |
| 6                           | 829    | निजी   | झाई | 0.0038543 | गुट्टामीदा विट्टल s/o लाला<br>(८२९ )                  |
| 7                           | 829    | निजी   | झाई | 0.0038543 | गुट्टामीदा सैलु s/o लाला<br>(८२९ )                    |
| 8                           | 829    | निजी   | झाई | 0.0192715 | कोन्गोंडा पोचाववा w/o मालूगोंडा<br>(८२९ )             |
| 9                           | 829    | निजी   | झाई | 0.0038543 | कोन्गोंडा जानकी w/o नरेन्दर<br>(८२९ )                 |
| 10                          | 829    | निजी   | झाई | 0.0038543 | गुट्टामीदा पुरुषोत्तम s/o गंगायाः<br>(८२९ )           |
| 11                          | 829    | निजी   | झाई | 0.060705  | टाइटल डिस्पूट<br>(८२९ )                               |
| 12                          | Panadi | सरकारी | झाई | 0.424935  | चेरुकुरी विजय लक्समी W/o.<br>लक्समीप्रसाद<br>(पानडी ) |
| <b>गांव का नाम: धर्मराम</b> |        |        |     |           |                                                       |
| 13                          | 138    | निजी   | झाई | 0.04047   | पूरा नागभुषणम संऑफ़ पेद्दा भाषयह<br>(१३८ )            |
| 14                          | 138    | निजी   | झाई | 0.04047   | पूरा विजय वैऑफ़ सुदर्शन<br>(१३८ )                     |
| 15                          | 138    | निजी   | झाई | 0.04047   | पूरा शिवयह संऑफ़ हनमयह<br>(१३८ )                      |
| 16                          | 138    | निजी   | झाई | 0.04047   | पूरा बाशेट्टी संऑफ़ हंमयह<br>(१३८ )                   |
| 17                          | 139    | निजी   | झाई | 0.060705  | कुर्लेपु किस्टयह संऑफ़ सायन्ना<br>(१३९ )              |
| 18                          | 139    | निजी   | झाई | 0.0708225 | १) कुर्लेपु रमववा वैऑफ़ लखमयह, २)                     |

|    |       |      |       |           |                                                 |
|----|-------|------|-------|-----------|-------------------------------------------------|
|    |       |      |       |           | कुर्लेपु सयन्वा संऑफ़ हनमंडलु<br>(१३९)          |
| 19 | 139   | निजी | ड्राई | 0.0303525 | कुर्लेपु पीरयह संऑफ़ भूमयह<br>(१३९)             |
| 20 | 139   | निजी | ड्राई | 0.0101175 | कुर्लेपुर सायन्ना संऑफ़ येल्लयह<br>(१३९)        |
| 21 | 141   | निजी | ड्राई | 0.0101175 | टाइटिल डिस्पूट<br>(१४१)                         |
| 22 | 144/2 | निजी | ड्राई | 0.1315275 | बागवान अली हसन संऑफ़ बशुमिया<br>(१४४/२)         |
| 23 | 144/2 | निजी | ड्राई | 0.0505875 | बागवान नसीमा बेगम वैऑफ़ सबीर<br>(१४४/२)         |
| 24 | 144/2 | निजी | ड्राई | 0.0303525 | एम् डी. हबीब संऑफ़ इस्माइल<br>(१४४/२)           |
| 25 | 144/2 | निजी | ड्राई | 0.0303525 | इंद्रमणि वैऑफ़ बंदप्प<br>(१४४/२)                |
| 26 | 144/2 | निजी | ड्राई | 0.060705  | मेबुब साब संऑफ़ मैथब साब<br>(१४४/२)             |
| 27 | 145/2 | निजी | ड्राई | 0.04047   | दुमपला विट्टल संऑफ़ रमयह<br>(१४५/२)             |
| 28 | 145/2 | निजी | ड्राई | 0.0303525 | दुमपाला मारुति संऑफ़ रमयह<br>(१४४/२)            |
| 29 | 63    | निजी | ड्राई | 0.1315275 | मसरीरेड्डी सत्यम्मा वैऑफ़ गोपालरेड्डी<br>(६३)   |
| 30 | 63    | निजी | ड्राई | 0.0708225 | गांधारी माणिकरेड्डी संऑफ़ नारायण रेड्डी<br>(६३) |
| 31 | 74    | निजी | ड्राई | 0.0505875 | मरेडी गंगम्मा वैऑफ़ बालरेड्डी<br>(७४)           |
| 32 | 77    | निजी | ड्राई | 0.0910575 | रेड्डी पोछयह संऑफ़ बलराज<br>(७७)                |
| 33 | 77    | निजी | ड्राई | 0.0708225 | दुमपला गंगामणि वैऑफ़ पोछयह<br>(७७)              |
| 34 | 79/2  | निजी | ड्राई | 0.006745  | कोन्गोंडा बालगोंडा संऑफ़ रामगोंडा<br>(७९/२)     |

|    |      |      |     |           |                                              |
|----|------|------|-----|-----------|----------------------------------------------|
| 35 | 79/2 | निजी | झाई | 0.0033725 | राजीगिरि मालूगोंडा संऑफ़ बुमगोंडा<br>(७९/२)  |
| 36 | 80/2 | निजी | झाई | 0.0139082 | राजीगिरि सयव्वा वैऑफ़ साईगोंडा<br>(८०/२)     |
| 37 | 80/2 | निजी | झाई | 0.0139082 | अन्नाराम रामुलु संऑफ़ गंगयह<br>(८०/२)        |
| 38 | 81/2 | निजी | झाई | 0.052441  | राजगिरि लक्मी वैऑफ़ अनभु गोंडा<br>(८१/२)     |
| 39 | 81/2 | निजी | झाई | 0.104882  | माणिक रेड्डी संऑफ़ नारायणा रेड्डी<br>(८१/२)  |
| 40 | 81/2 | निजी | झाई | 0.0611811 | राजगिरि सथव्वा वैऑफ़ दत्ता गोंडा<br>(८१/२)   |
| 41 | 81/2 | निजी | झाई | 0.0611811 | राजगिरि सयव्वा वैऑफ़ साई गोंडा<br>(८१/२)     |
| 42 | 81/2 | निजी | झाई | 0.052441  | राजगिरि दत्तू गोंडा संऑफ़ साईगोंडा<br>(८१/२) |
| 43 | 81/2 | निजी | झाई | 0.0611811 | गाइनी परवयह संऑफ़ अगामयह<br>(८१/२)           |
| 44 | 81/2 | निजी | झाई | 0.052441  | राजगिरि लक्मी वैऑफ़ अंभु गोंडा<br>(८१/२)     |
| 45 | 82/2 | निजी | झाई | 0.12141   | कुम्मरि दत्तू संऑफ़ रामुलु<br>(८२/२)         |
| 46 | 82/2 | निजी | झाई | 0.0050588 | चाकली सैलु संऑफ़ रमयह<br>(८२/२)              |
| 47 | 82/2 | निजी | झाई | 0.1315275 | चाकली बागयह संऑफ़ रमयह<br>(८२/२)             |
| 48 | 82/2 | निजी | झाई | 0.1264688 | माणिक रेड्डी संऑफ़ नारायणा रेड्डी<br>(८२/२)  |
| 49 | 83   | निजी | झाई | 0.263055  | मंगली गंगामणि वैऑफ़ लकमयह<br>(८३)            |
| 50 | 84   | निजी | झाई | 0.04047   | कुर्लेपु पीरयह संऑफ़ भूमयह<br>(८४)           |
| 51 | 84   | निजी | झाई | 0.0303525 | कुर्लेपु सैलु संऑफ़ येल्लयह<br>(८४)          |

|    |      |        |       |           |                                                   |
|----|------|--------|-------|-----------|---------------------------------------------------|
| 52 | 85/2 | निजी   | ड्राई | 0.08094   | विद्धूगोंडा संऑफ़ हनमगोंडा<br>(८५/२)              |
| 53 | 85/2 | निजी   | ड्राई | 0.2529375 | करोबा संऑफ़ मारुति राव<br>(८५/२)                  |
| 54 | 85/2 | निजी   | ड्राई | 0.2124675 | प्रबुगोंडा संऑफ़ मारुतिगोंडा<br>(८५/२)            |
| 55 | 86   | निजी   | ड्राई | 0.020235  | येल्लारपु लिगारेडुी संऑफ़ गंगारेडुी<br>(८६)       |
| 56 | 87/2 | निजी   | ड्राई | 0.0151763 | कुर्लेपु पीरायह संऑफ़ भूमयह<br>(८७/२)             |
| 57 | 87/2 | निजी   | ड्राई | 0.0151763 | कुर्लेपु सयव्वा वैऑफ़ हनमथु<br>(८७/२)             |
| 58 | 87/2 | निजी   | ड्राई | 0.0151763 | कुर्लेपु हनमववा वैऑफ़ बाचयह<br>(८७/२)             |
| 59 | 87/2 | निजी   | ड्राई | 0.0151763 | कुर्लेपु सैलु संऑफ़ एल्लायह<br>(८७/२)             |
| 60 | 88/2 | निजी   | ड्राई | 0.0101175 | वासरी हनमंडलु संऑफ़ तुकाराम<br>(८८/२)             |
| 61 | 88/2 | निजी   | ड्राई | 0.0101175 | वासरी नारायणा संऑफ़ तुकाराम<br>(८८/२)             |
| 62 | 88/2 | निजी   | ड्राई | 0.0505875 | मदुरि मारुति संऑफ़ बालयह<br>(८८/२)                |
| 63 | 88/2 | निजी   | ड्राई | 0.0101175 | मदुरि रामुलु संऑफ़ गोविंद<br>(८८/२)               |
| 64 | 88/2 | निजी   | ड्राई | 0.0505875 | जिन्ना गंगाराम संऑफ़ किष्टयह<br>(८८/२)            |
| 65 | 89/2 | निजी   | ड्राई | 0.586815  | येल्लारपु लिगारेडुी संऑफ़ गंगा रेडुी<br>(८९/२)    |
| 66 | 90/2 | निजी   | ड्राई | 0.303525  | काटिके श्रीनिवास संऑफ़ रामुलु<br>(९०/२)           |
| 67 | 91/1 | सरकारी | ड्राई | 0.0910575 | बोई गंगाराम संऑफ़ रमयह<br>(९१/१)                  |
| 68 | 93/1 | निजी   | ड्राई | 0.111292  | येल्लारपु संतोष रेडुी संऑफ़ हणमंत रेडुी<br>(९३/१) |

|    |                    |      |       |                  |                                                 |
|----|--------------------|------|-------|------------------|-------------------------------------------------|
| 69 | 94                 | निजी | ड्राई | 0.0303525        | मदुरि मारुति संऑफ बालयह<br>(९४ )                |
|    | गांव का नाम: पीतलम |      |       |                  |                                                 |
| 70 | 85                 | निजी | ड्राई | 0.101175         | जी. थिरमल रेड्डी S/o. श्रीनिवास रेड्डी<br>(८५ ) |
|    |                    |      | कुल   | 29.4696620999999 |                                                 |

[फा. सं. NHAI/PIU-HYD/NH-161/S-N-A/GC/1/2016/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2020

**S.O. 158 (E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.2882 (E), dated 08th August, 2019, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 161 on the stretch of land from Km.79.850 to Km 134.650 & Km 135.582 to Km 136.118 (Sangareddy-Nanded-Akola Section) in the District Kamareddy in the State of Telangana;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Sakshi(Telugu)” and “Hans India (English)” both dated 21st August 2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.79.850 to Km 134.650 & Km 135.582 to Km 136.118 (Sangareddy-Nanded-Akola Section) on the National Highway No 161 in Kamareddy District in the state of TELANGANA.**

| State: TELANGANA |                           |              | District: KAMAREDDY |                 |                                                                      |
|------------------|---------------------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sr. No.          | Survey Number             | Type of Land | Nature of Land      | Area in Hectare | Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.             |
| 1                | 2                         | 3            | 4                   | 5               | 6                                                                    |
|                  | <b>Taluk: Bichkunda</b>   |              |                     |                 |                                                                      |
|                  | <b>Village: Fathlapur</b> |              |                     |                 |                                                                      |
| 1                | 123                       | Private      | Dry                 | 0.0809399       | 1) Dr. Bheemrao S/o. Dondiba, 2) Baswaraj patel S/o. Maruthi Rao 123 |
| 2                | 123                       | Private      | Dry                 | 0.536227        | Bheemrao S/o. Maruthi Rao 123                                        |
| 3                | 123                       | Private      | dry                 | 0.4148175       | 1) Baswaraj patel S/o. Maruthi Rao, 2) Bheemrao S/o. Maruthi Rao 123 |
| 4                | 127                       | Private      | Dry                 | 1.1635125       | Nagubai W/o. Madav Rao 127                                           |
| 5                | 127                       | Private      | Dry                 | 0.3541125       | Shantha bai W/o. Laxman 127                                          |
| 6                | 127                       | Private      | Dry                 | 0.060705        | Bheemreddy S/o. Vittal Reddy 127                                     |
| 7                | 129                       | Private      | Dry                 | 0.303525        | Naganath S/o. Gangaram 129                                           |
| 8                | 130                       | Private      | Dry                 | 0.44517         | Yadavrao S/o. Eeranna 130                                            |
| 9                | 139                       | Private      | Dry                 | 0.0057815       | Laxman S/o. Rajanna 139                                              |
| 10               | 139                       | Private      | Dry                 | 0.0115627       | Sk.LLizababa S/o Shadulla 139                                        |
| 11               | 139                       | Private      | Dry                 | 0.0057815       | SK. Kalim S/o. Khamruddin 139                                        |
| 12               | 139                       | Private      | Dry                 | 0.0057815       | SK. Saleem S/o Abubakar 139                                          |
| 13               | 139                       | Private      | dry                 | 0.0057815       | Hanmandlu S/o. Rajanna 139                                           |
| 14               | 139                       | Private      | Dry                 | 0.0057815       | Ramulu S/o. Rajanna 139                                              |

|    |     |         |     |           |                                                                                                                                      |
|----|-----|---------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 269 | Private | dry | 0.0050587 | Eeravva W/o. Narayana<br>269                                                                                                         |
| 16 | 269 | Private | dry | 0.0050587 | Anjavva W/o Ramulu<br>269                                                                                                            |
| 17 | 269 | Private | dry | 0.0101175 | Narsavva W/o. Parbanna<br>269                                                                                                        |
| 18 | 271 | Private | dry | 0.0093994 | Hingu Laxman S/o. Rajamma, Hingu<br>Yadav Rao S/o. Basling<br>271                                                                    |
| 19 | 271 | Private | dry | 0.0093994 | Ramulu S/o. Rajanna, Hingu Laxman<br>S/o. Rajamma, Hingu Anjavva W/o.<br>Hanmandlu, Indira Bai W/o. Laxman<br>271                    |
| 20 | 271 | Private | dry | 0.0093994 | Hingu Anjavva W/o. Hanmandlu,<br>Yadav Rao S/o. Basling, Sreenath<br>Agrawal S/o. Gulp Chand Agarwal<br>271                          |
| 21 | 271 | Private | dry | 0.0093994 | Hingu Yadav Rao S/o. Basling<br>271                                                                                                  |
| 22 | 271 | Private | dry | 0.0140993 | Sreenath Agrawal S/o. Gulp Chand<br>Agarwal, Kolawar Prathibha W/o.<br>Shiva Kumar<br>271                                            |
| 23 | 271 | Private | dry | 0.0148825 | Kolawar Prathibha W/o. Shiva<br>Kumar, Nagalaxmi W/o. Srinivas<br>271                                                                |
| 24 | 271 | Private | dry | 0.0125326 | Nagalaxmi W/o. Srinivas, Narsavva<br>W/o. Parbanna<br>271                                                                            |
| 25 | 271 | Private | dry | 0.0125326 | Narsavva W/o. Parbanna, Laxmavva<br>W/o. Pochaboi, Shenkar S/o.<br>Narayana<br>271                                                   |
| 26 | 271 | Private | dry | 0.0109661 | Shenkar S/o. Narayana, Radhabai<br>W/o. Hanmandlu, Parvathi W/o.<br>Baswaraj, Anjavva W/o. Ramulu<br>271                             |
| 27 | 271 | Private | dry | 0.0093995 | Anjavva W/o. Ramulu, Title Dispute<br>271                                                                                            |
| 28 | 271 | Private | dry | 0.0093995 | Title Dispute<br>271                                                                                                                 |
| 29 | 272 | Private | dry | 0.0244949 | Anjavva W/o. Hanmandlu, Parvathi<br>W/o. Parmesh<br>272                                                                              |
| 30 | 272 | Private | dry | 0.0071    | Parvathi W/o. Parmesh, Anjavva<br>W/o. Ramulu, Narsavva W/o.<br>Parbanna, Eeravva W/o. Narayana,<br>Radhabai W/o. Hanmandlu, Peeraji |

|    |     |         |     |           |                                                                                                                        |
|----|-----|---------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |         |     |           | S/o. Hanmandlu<br>272                                                                                                  |
| 31 | 272 | Private | dry | 0.00213   | Mamatha W/o. Krishna<br>272                                                                                            |
| 32 | 272 | Private | dry | 0.00071   | Madhav Rao S/o. Srinivas<br>272                                                                                        |
| 33 | 272 | Private | dry | 0.00071   | Sailu S/o. Narayana<br>272                                                                                             |
| 34 | 272 | Private | dry | 0.00213   | Peeraji S/o. Hanmandlu<br>272                                                                                          |
| 35 | 272 | Private | dry | 0.001065  | Peeraji S/o. Hanmandlu<br>272                                                                                          |
| 36 | 272 | Private | Dry | 0.001065  | Peeraji S/o. Hanmandlu<br>272                                                                                          |
| 37 | 272 | Private | dry | 0.001065  | Peeraji S/o. Hanmandlu<br>272                                                                                          |
| 38 | 273 | Private | dry | 0.303525  | Rajamani W/o. Shivakanth<br>273                                                                                        |
| 39 | 273 | Private | Dry | 0.1719975 | Yerrolla Bhudevi W/o. Gangaboi<br>273                                                                                  |
| 40 | 273 | Private | dry | 0.1719975 | Saidaboi S/o. Pedda Saidaboi<br>273                                                                                    |
| 41 | 277 | Private | Dry | 0.0303525 | Kammari Parvathi Bai W/o. Ramulu<br>277                                                                                |
| 42 | 277 | Private | dry | 0.020235  | Shankar Rao S/o. Hanmanth Rao<br>277                                                                                   |
| 43 | 283 | Private | dry | 0.0124301 | Chandrakala W/o. Madappa,<br>nagamani W/o. Shankarappa,<br>Sangappa W/o. Madhappa<br>283                               |
| 44 | 283 | Private | dry | 0.0124301 | Sangappa W/o. Madhappa,<br>Grampanchayath Land<br>283                                                                  |
| 45 | 283 | Private | dry | 0.0124301 | Grampanchayath Land<br>283                                                                                             |
| 46 | 283 | Private | dry | 0.0248602 | Savitha W/o. Ramgoud, Sunitha W/o.<br>Parmeshappa, Parmeshappa s/o.<br>Eerappa, Gaini Yadav Rao S/o.<br>Chandar<br>283 |
| 47 | 283 | Private | dry | 0.0124301 | Grampanchayath Land, Balagoud S/o.<br>Ramgoud<br>283                                                                   |
| 48 | 283 | Private | dry | 0.0062151 | Gaini Yadav Rao S/o. Chandar, Gaini<br>Chandar S/o. Laxmaiah<br>283                                                    |

|    |     |         |     |           |                                                                                                 |
|----|-----|---------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | 283 | Private | dry | 0.0124301 | Nagnath S/o. Laxmaiah, Road (CC)<br>283                                                         |
| 50 | 283 | Private | dry | 0.006215  | Gaini Raju S/o. Laxmaiah, Shivavva<br>W/o. Kampaiah<br>283                                      |
| 51 | 283 | Private | Dry | 0.0124301 | Gaini Chandar S/o. Laxmaiah, Gaini<br>nagnath S/o. Laxmaiah, Gaini Raju<br>S/o. Laxmaiah<br>283 |
| 52 | 283 | Private | dry | 0.0062151 | 1) Vittabai W/o. Lalaiah, 2) Dhanraj<br>S/o. Lalaiah<br>283                                     |
| 53 | 283 | Private | dry | 0.0062151 | Chandravva W/o. Gangadhar,<br>Shanthavva W/o. Shankar<br>283                                    |
| 54 | 283 | Private | dry | 0.0062151 | Maruthi S/o. Shankar, Anjavva W/o.<br>Ramulu<br>283                                             |
| 55 | 283 | Private | dry | 0.0062151 | 1) Maruthi S/o. Mogulaiah, 2) Lalaiah<br>s/o. Peeraiah<br>283                                   |
| 56 | 283 | Private | dry | 0.0062151 | Anjavva W/o. Ramulu, Gangamani<br>W/o. Vijay<br>283                                             |
| 57 | 283 | Private | dry | 0.0062151 | Gangamani W/o. Vijay, Sangeetha<br>W/o. Kumar<br>283                                            |
| 58 | 283 | Private | Dry | 0.0062151 | Sangeetha W/o. Kumar, hanmavva<br>W/o. Vittal<br>283                                            |
| 59 | 283 | Private | Dry | 0.0062151 | hanmavva W/o. Vittal, Maruthi S/o.<br>Mogulaiah<br>283                                          |
| 60 | 283 | Private | dry | 0.006215  | Lalaiah s/o. Peeraiah, Sayavva W/o.<br>Vittal<br>283                                            |
| 61 | 283 | Private | dry | 0.006215  | Sayavva W/o. Vittal<br>283                                                                      |
| 62 | 283 | Private | DRY | 0.006215  | Sayavva W/o. Vittal, Chandravva<br>W/o. Sangaiah<br>283                                         |
| 63 | 283 | Private | dry | 0.006215  | Chandravva W/o. Sangaiah,<br>Hanmandlu S/o. Ramulu<br>283                                       |
| 64 | 283 | Private | dry | 0.006215  | Hanmandlu S/o. Ramulu, Balraj S/o.<br>Ramulu<br>283                                             |

|    |     |         |     |           |                                                                                                                                              |
|----|-----|---------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 | 283 | Private | dry | 0.006215  | Balraj S/o. Ramulu, Peeraiah s/o. Peeraiah<br>283                                                                                            |
| 66 | 283 | Private | dry | 0.0124301 | Peeraiah s/o. Peeraiah, Laxmibai W/o. Laxman<br>283                                                                                          |
| 67 | 283 | Private | dry | 0.006215  | Laxmibai W/o. Laxman, Maruthi S/o. Laxman<br>283                                                                                             |
| 68 | 283 | Private | dry | 0.006215  | Shanthavva W/o Shanker, Maruthi S/o Shankar<br>283                                                                                           |
| 69 | 283 | Private | dry | 0.006215  | Nagnath S/o Laxamaiah<br>283                                                                                                                 |
| 70 | 283 | Private | dry | 0.0124301 | 1) Shivavva W/o. Kampaiah, 2) Sridevi W/o. Yadav Rao, 3) Chandravva W/o. Gangadhar<br>283                                                    |
| 71 | 283 | Private | dry | 0.006215  | Hanuman Temple<br>283                                                                                                                        |
| 72 | 283 | Private | dry | 0.006215  | Maruthi S/o. Laxman, Nagnath S/o. Laxmaiah<br>283                                                                                            |
| 73 | 283 | Private | dry | 0.0124301 | Road (CC)<br>283                                                                                                                             |
| 74 | 283 | Private | dry | 0.0559353 | Road (CC), Sarubai W/o. Balaiah, Beemaiah S/o. Nagaiah, Begari Yadav Rao s/o. Lalaiah, Hanmavva W/o. Mogulaiah, Vittabai W/o. Lalaiah<br>283 |
| 75 | 283 | Private | dry | 0.0062151 | 1) Dhanraj S/o. Lalaiah, 2) Shankar S/o. Mogulaiah<br>283                                                                                    |
| 76 | 283 | Private | dry | 0.0062151 | 1) Shankar S/o. Mogulaiah, 2) Chandar S/o. Shivaram<br>283                                                                                   |
| 77 | 283 | Private | dry | 0.006215  | 1) Ameenabi W/o. Mohammad Sab, 2) Khajamiya S/o. Bande Alisab<br>283                                                                         |
| 78 | 283 | Private | dry | 0.006215  | 1) Chandar S/o. Shivaram, 2) Ameenabi W/o. Mohammad Sab<br>283                                                                               |
| 79 | 283 | Private | dry | 0.006215  | Khajamiya S/o. Bande Alisab<br>283                                                                                                           |
| 80 | 283 | Private | dry | 0.006215  | 1)Khajamiya S/o. Bande Alisab, 2)Hanuman Temple<br>283                                                                                       |

|                                         |     |         |     |           |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81                                      | 283 | Private | dry | 0.006215  | Hanuman Temple, Machkuri Ramulu S/o. Shivaram<br>283                                                                                                                                                |
| 82                                      | 283 | Private | dry | 0.006215  | Hanuman Temple<br>283                                                                                                                                                                               |
| 83                                      | 283 | Private | dry | 0.006215  | Road (CC)<br>283                                                                                                                                                                                    |
| 84                                      | 283 | Private | dry | 0.006215  | Road (CC)<br>283                                                                                                                                                                                    |
| 85                                      | 283 | Private | dry | 0.0497203 | Machkuri Ramulu S/o. Shivaram,<br>Machkuri Chendar S/o. Shivaram,<br>Machkuri Sailu S/o. Shivaram, Sk.<br>Amjed S/o. Mahboob Sab, Rafik S/o.<br>Khaja Sab, Shenkarappa S/o.<br>Veerabadrappa<br>283 |
| <b>Village: Kandarpalle</b>             |     |         |     |           |                                                                                                                                                                                                     |
| 86                                      | 170 | Private | Dry | 0.020235  | Vadla Sudhakar S/o. Shanker<br>170                                                                                                                                                                  |
| <b>Village: Malkapur (Kodagalpatti)</b> |     |         |     |           |                                                                                                                                                                                                     |
| 87                                      | 40  | Private | Dry | 0.0303525 | S. Dhipavali W/o. Anandh Kumar<br>40                                                                                                                                                                |
| 88                                      | 41  | Private | Dry | 0.020235  | Mamidi Narayana S/o. Balram<br>41                                                                                                                                                                   |
| 89                                      | 41  | Private | Dry | 0.0101175 | Kurthyala Ambagud S/o. Hanmagoud<br>41                                                                                                                                                              |
| 90                                      | 41  | Private | Dry | 0.04047   | Naragoud S/o. Venka Goud<br>41                                                                                                                                                                      |
| 91                                      | 41  | Private | Dry | 0.020235  | Kurthyala Sayavva W/o. Pocha Goud<br>41                                                                                                                                                             |
| 92                                      | 42  | Private | Dry | 0.0303525 | Chand Pasha S/o. Ibrahim<br>42                                                                                                                                                                      |
| 93                                      | 42  | Private | Dry | 0.04047   | Gangaram S/o. Baggonda<br>42                                                                                                                                                                        |
| 94                                      | 42  | Private | Dry | 0.0303525 | Nadpila BadhruGonda S/o.<br>NarsaGonda<br>42                                                                                                                                                        |
| 95                                      | 42  | Private | Dry | 0.060705  | Peddolla Gangaram S/o. Parvaiah<br>42                                                                                                                                                               |
| 96                                      | 48  | Private | Dry | 0.020235  | Kurthyala Sayavva W/o. Pocha Goud<br>48                                                                                                                                                             |
| 97                                      | 60  | Private | Dry | 0.020235  | Gorganti Savithri W/o. Venkanna<br>60                                                                                                                                                               |
| <b>Village: Rajola</b>                  |     |         |     |           |                                                                                                                                                                                                     |
| 98                                      | 128 | Private | dRY | 0.141645  | Sailu S/o. Gangaram                                                                                                                                                                                 |

|     |                                  |            |     |           |                                                                         |
|-----|----------------------------------|------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  |            |     |           | 128                                                                     |
| 99  | 194                              | Private    | dRY | 0.020235  | Indrasenareddy S/o. Narsimhareddy<br>194                                |
|     | <b>Village: Shantapur</b>        |            |     |           |                                                                         |
| 100 | 140                              | Government | DRY | 3.5714775 | Forest land<br>140                                                      |
| 101 | 142                              | Government | Dry | 0.222585  | Forest land<br>142                                                      |
| 102 | 143                              | Government | Dry | 0.303525  | Govt. land( Shikham)<br>143                                             |
| 103 | 336                              | Private    | Dry | 0.0101175 | TITLE DISPUTE<br>336                                                    |
| 104 | 374                              | Private    | Dry | 0.12141   | Parubai W/o. Chanda<br>374                                              |
| 105 | 388                              | Private    | Dry | 0.0101175 | Kuthuboddin S/o. Nazeemoddin<br>388                                     |
| 106 | 388                              | Private    | Dry | 0.0101175 | TITLE DISPUTE<br>388                                                    |
| 107 | 393                              | Private    | Dry | 0.12141   | TITLE DISPUTE<br>393                                                    |
| 108 | 396                              | Private    | Dry | 0.04047   | Yerkonda Shanthavva W/o.<br>Gangaram<br>396                             |
| 109 | 398                              | Private    | Dry | 0.101175  | Deepchand S/o. Devji<br>398                                             |
| 110 | 404                              | Private    | Dry | 0.060705  | Parubai W/o. Chanda<br>404                                              |
|     | <b>Taluk: Jukkal</b>             |            |     |           |                                                                         |
|     | <b>Village: Khemraja Kallali</b> |            |     |           |                                                                         |
| 1   | 119                              | Private    | Dry | 0.0101175 | Deshraj S/o. Dhulya ram<br>119                                          |
| 2   | 119                              | Private    | Dry | 0.0505875 | Thippa Nayak S/o. Lasmaiah<br>119                                       |
| 3   | 119                              | Private    | Dry | 0.141645  | Maruthi Rao S/o. Hanmanth Rao<br>119                                    |
| 4   | 119                              | Private    | Dry | 0.020235  | Maruthi Rao S/o. Hanmanth Rao<br>119                                    |
| 5   | 119                              | Private    | Dry | 0.08094   | Radheshyam S/o. Fakheer Chandh,<br>Sunkari Keshavva W/o. Pandari<br>119 |
| 6   | 120                              | Private    | Dry | 0.04047   | Pakali Nagamani W/o. Gangaram<br>120                                    |
| 7   | 120                              | Private    | Dry | 0.0151763 | Pakali Ramulu S/o. Shivanna                                             |

|    |                        |         |     |           |                                                                         |
|----|------------------------|---------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|    |                        |         |     |           | 120                                                                     |
| 8  | 120                    | Private | Dry | 0.0151762 | Pakali Govindh S/o. Ramanna<br>120                                      |
| 9  | 121                    | Private | Dry | 0.0101175 | Babar Jani S/o. Moulana<br>121                                          |
| 10 | 134                    | Private | Dry | 0.0101175 | moghulaiah S/o. Balaiah<br>134                                          |
| 11 | 134                    | Private | Dry | 0.0101175 | Dharu Bai W/o. Dhavulaiah<br>134                                        |
| 12 | 136                    | Private | Dry | 0.060705  | B. Gangaram S/o. Mogulaji ( Y.<br>Saraswathi W/o. Siddiram)<br>136      |
| 13 | 136                    | Private | Dry | 0.0910575 | Barthbai W/o Bashetty<br>136                                            |
| 14 | 136                    | Private | Dry | 0.060705  | B.Maruthi S/o Hanmanthu<br>136                                          |
| 15 | 136                    | Private | Dry | 0.16188   | B.Anjaiah S/o. Manik<br>136                                             |
| 16 | 89                     | Private | Dry | 0.0101175 | Umakanth Reddy S/o. Vithal Reddy<br>89                                  |
| 17 | 89                     | Private | Dry | 0.04047   | Ram Reddy S/o. Shankar Reddy<br>89                                      |
| 18 | 97                     | Private | Dry | 0.08094   | Soudhagar Gangaram S/o. Saloji<br>97                                    |
| 19 | 97                     | Private | Dry | 0.0303525 | Thota Nadipi Mogulaiah<br>97                                            |
| 20 | 98                     | Private | Dry | 0.0101175 | Bhaga Reddy S/o. Raja Reddy<br>98                                       |
| 21 | 98                     | Private | Dry | 0.0050588 | Sai Reddy s/o. Shankar Reddy<br>98                                      |
| 22 | 98                     | Private | Dry | 0.0050588 | Chandrakala W/o. Bhum Gonda<br>98                                       |
|    | <b>Village: Kowlas</b> |         |     |           |                                                                         |
| 23 | 100                    | Private | Dry | 0.1917177 | Mahadev Mandir-Inam (Baswalinga<br>Shiva Chary S/o. Baslingappa)<br>100 |
| 24 | 54                     | Private | Dry | 0.1112925 | Santhosh Agarwal S/o. Harinarayan<br>54                                 |
| 25 | 54                     | Private | Dry | 0.0252938 | Jamuna bai W/o. Ramsingh<br>54                                          |
| 26 | 54                     | Private | Dry | 0.0303525 | Vikramsingh S/o. Takursingh<br>54                                       |
| 27 | 54                     | Private | Dry | 0.0151763 | Gajiram S/o. Narayana<br>54                                             |

|    |      |         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------|---------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 67/2 | Private | Dry | 0.0505875 | Yeseshwhini W/o. Anupkumar<br>67/2                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29 | 67/3 | Private | Dry | 0.0101175 | Bichkunda Laxmi W/o. Ramakrishna<br>67/3                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30 | 68   | Private | dry | 0.12141   | Anushol S/o. Anup Kumar<br>68                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31 | 68   | Private | Dry | 0.12141   | Bichkunda Laxmi W/o. Ramakrishna<br>68                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 32 | 68   | Private | Dry | 0.0708225 | Bathini Shankar S/o. Ashanna<br>68                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33 | 69   | Private | Dry | 0.1441744 | Thakur Yogitha Singh S/o. Jaipal<br>Singh<br>69                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34 | 69   | Private | Dry | 0.0480581 | Purushotham Agarwal S/o. Srinivas<br>Agarwal<br>69                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 35 | 69   | Private | Dry | 0.0101175 | Anushol S/o. Anup Kumar<br>69                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 36 | 70   | Private | dry | 0.0455288 | Buddi Laxman S/o. Ganganna<br>70                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 37 | 70   | Private | dry | 0.101175  | 1) Jangam Sangavva W/o. Eeraiah, 2)<br>Sk. Shadul S/o. Ali, 3) Pakre Dharam<br>S/o. Megha, 4) Vat Vat Sanjay S/o.<br>Rajeshwar Rao, 5) Gangaram S/o.<br>Balaiah, 6) Sk.Rasul miya S/o.<br>Hafeez miya, 7) Kurma Shivugonda<br>S/o. Lacmagonda, 8) SK. Akthar S/o.<br>Sikhan, 9) Ahmed bee W/o. Yousuf<br>70 |
| 38 | 70   | Private | Dry | 0.0101175 | Kousalya Bai W/o. Janardhanrao<br>70                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 39 | 70   | Private | dry | 0.0151763 | Mothilal S/o. Nagun<br>70                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 40 | 74   | Private | dry | 0.0303525 | Mydari Gangaram S/o. Pochanna<br>74                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41 | 74   | Private | Dry | 0.0910575 | Budde Vittal S/o. Gangaram<br>74                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 42 | 74   | Private | Dry | 0.0556463 | Thatipalli Hanmavva W/o. Ramagoud<br>74                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 43 | 74   | Private | Dry | 0.0252938 | N.Kashinath S/o. Narsingrao<br>74                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44 | 74   | Private | dry | 0.020235  | Madappa S/o. Nagappa<br>74                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 45 | 75   | Private | dry | 0.44517   | 1) A. Shanker Rao S/o. Baswanthrao,<br>2) Moinoddin S/o. Lalahmed, 3)<br>Maruthi S/o. Siddi Ramulu, 4) Avuti<br>Maruthi S/o. Vittal, 5) Shadulsab S/o.                                                                                                                                                      |

|    |      |         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------|---------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |         |     |           | Masumali, 6) Shabber Sab S/o. Sayeed Sab, 7) Doulatrao S/o. Govind Rao, 8) Edigi Datha Goud S/o. Nara Goud, 9) Babu S/o. Abbas miya, 10) Khaja Mohammed S/o. Mahiboob sab, 11) Kamarbee W/o. Fakeer Ahammad, 12) Anishetti Shailaja W/o. Naganath, 13) Sardar bee W/o. Yadullah, 14) Gousiya Bee W/o. Fakeer Sab, 15) Bijan Bee W/o. Mehboob Sab, 16) Sayyad sab S/o. Goresab, 17) Malan Bee W/o. Sulthan Sab, 18) Pakre Ranjeeth S/o. Narayana, 19) Pakala Venkatesh S/o. Shankar, 20) Pakala Ramesh S/o. Shankar<br>75 |
| 46 | 75   | Private | Dry | 0.0708225 | Hari & Deba others<br>75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 47 | 84/2 | Private | Dry | 0.0303525 | Budde Hanmandlu S/o. Lakshmaiah<br>84/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 48 | 84/2 | Private | Dry | 0.020235  | Bagwan Muneera Begum W/o. Mohammad<br>84/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 49 | 84/2 | Private | Dry | 0.0303525 | Shashikala W/o. Laxman<br>84/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 50 | 84/2 | Private | Dry | 0.0126469 | Malipatel Bandappa S/o. Eerappa<br>84/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 51 | 84/2 | Private | dry | 0.0126469 | Jubre Sanjeev S/o. Vittal rao<br>84/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52 | 84/2 | Private | dry | 0.0126469 | Agde Vishwanathrao S/o. Shivaram<br>84/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 53 | 84/2 | Private | dry | 0.012647  | Akkampalli Sanjayrao S/o. Narayanrao<br>84/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 54 | 84/3 | Private | dry | 0.0379406 | Nagappa S/o. Hanmaiah<br>84/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 55 | 84/3 | Private | dry | 0.0151763 | Budde Kashiram S/o. Narsanna<br>84/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56 | 84/3 | Private | Dry | 0.0151763 | Kalavathi W/o. Venkatrao<br>84/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 57 | 84/3 | Private | dry | 0.0227644 | D. Chandrakanth S/o. Madappa<br>84/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 58 | 85   | Private | Dry | 0.2728557 | Brahman Achari Mandir-Inamland ( T. Ananthrao S/o. Venkatrao)<br>85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 59 | 92   | Private | Dry | 0.12141   | Pandiri Hanmathreddy S/o. Lingareddy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                        |         |     |           |                                                                     |
|----|------------------------|---------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                        |         |     |           | 92                                                                  |
| 60 | 93                     | Private | Dry | 0.0708225 | Kulakarni Srikanth S/o.<br>Janaradhanrao<br>93                      |
| 61 | 94                     | Private | Dry | 0.222585  | Jinna balram S/o. Parbanna<br>94                                    |
| 62 | 94                     | Private | Dry | 0.0505875 | Yatakari Vijayalakshmi W/o.<br>Mogulaiah<br>94                      |
| 63 | 94                     | Private | Dry | 0.04047   | Vaani W/o. Sanjay kumar<br>94                                       |
| 64 | 97                     | Private | Dry | 0.04047   | Angde Prakash S/o. Naganathrao<br>97                                |
| 65 | 97                     | Private | Dry | 0.04047   | Angde Subhash S/o. Naganathrao<br>97                                |
| 66 | 97                     | Private | Dry | 0.04047   | Angde Santhosh S/o. Naganathrao<br>97                               |
| 67 | 98                     | Private | Dry | 0.020235  | Matam Shivalingappa S/o.<br>Vishwanathappa<br>98                    |
| 68 | 98                     | Private | Dry | 0.0101175 | Matam Mahanthappa S/o.<br>Vishwanathappa<br>98                      |
| 69 | 98                     | Private | Dry | 0.04047   | Rajeshwari W/o. Kashinathappa<br>98                                 |
| 70 | 98                     | Private | Dry | 0.0303525 | Kumaraswami S/o. Vishwanathappa<br>98                               |
| 71 | 99                     | Private | Dry | 0.3541125 | Mahadev Mandir-Inam (Havayappa<br>S/o. Babyappa)<br>99              |
|    | <b>Taluk: Madnur</b>   |         |     |           |                                                                     |
|    | <b>Village: Madnur</b> |         |     |           |                                                                     |
| 1  | 262                    | Private | Dry | 0.0303525 | M. Venkatesh S/o. Ramulu<br>262                                     |
| 2  | 276                    | Private | Dry | 0.154332  | Mallari Swamy S/o. Venkatesham<br>276                               |
| 3  | 276                    | Private | dry | 0.1593105 | Vijaya W/o. Dayanand<br>276                                         |
| 4  | 309                    | Private | Dry | 0.101175  | Ramakrishna S/o. Baganna<br>309                                     |
| 5  | 309                    | Private | Dry | 0.0101175 | Gangaram S/o. Baganna<br>309                                        |
| 6  | 32                     | Private | Dry | 0.141645  | 1) Kamalabai W/o. Gangaram, 2) B.<br>Shanthavva W/o. Gangaram<br>32 |

|                        |      |            |     |           |                                        |
|------------------------|------|------------|-----|-----------|----------------------------------------|
| 7                      | 325  | Private    | Dry | 0.0050588 | P. Hanmandlu S/o. Sailu<br>325         |
| 8                      | 325  | Private    | Dry | 0.0050588 | P. Gangaram S/o. Sailu<br>325          |
| 9                      | 33   | Private    | Dry | 0.0101175 | Balakishan S/o. Ellappa<br>33          |
| 10                     | 34   | Private    | Dry | 0.060705  | Navaneeth S/o. Balsingh<br>34          |
| 11                     | 62   | Private    | Dry | 0.0026964 | Kulkarni Bhaskar S/o. Ananth Rao<br>62 |
| 12                     | 73   | Private    | Dry | 0.0505875 | Hanmandlu S/o. Naganna<br>73           |
| 13                     | 74   | Private    | Dry | 0.020235  | Hanmandlu S/o. Naganna<br>74           |
| 14                     | Road | Government | Dry | 0.060705  | Road<br>Road                           |
| <b>Village: Mainur</b> |      |            |     |           |                                        |
| 15                     | 193  | Private    | dry | 0.060705  | Gireesh S/o. Vittal Rao<br>193         |
| 16                     | 193  | Private    | dry | 0.1517625 | Godhavari bai W/o. Madavrao<br>193     |
| 17                     | 201  | Private    | dry | 0.04047   | S. Shivanna S/o. Veeranna<br>201       |
| 18                     | 201  | Private    | dry | 0.0050588 | M. Nagesh S/o. Ashanna<br>201          |
| 19                     | 201  | Private    | dry | 0.0151763 | A. Gangaram S/o. Dasthaboi<br>201      |
| 20                     | 201  | Private    | dry | 0.0025294 | A. Balaboi S/o. Dasthaboi<br>201       |
| 21                     | 201  | Private    | dry | 0.0151763 | D. Lakshmibai W/o. Bapurao<br>201      |
| 22                     | 203  | Private    | dry | 0.020235  | Laxmi bai W/o. Vittal Rao<br>203       |
| 23                     | 215  | Private    | dry | 0.0151763 | Baswanthrao S/o. Hanmanthrao<br>215    |
| 24                     | 215  | Private    | dry | 0.0151763 | Sailu S/o. Naganna<br>215              |
| 25                     | 216  | Private    | dry | 0.0303525 | Sakkubai W/o. Pochaboi<br>216          |
| 26                     | 216  | Private    | dry | 0.0050588 | Narayana S/o. Bhumanna<br>216          |
| 27                     | 220  | Private    | dry | 0.020235  | P. Madhu W/o. Lachanna<br>220          |

|                          |       |            |     |           |                                                                                  |
|--------------------------|-------|------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 28                       | 220   | Private    | dry | 0.020235  | P. Chandravva W/o. Hanmanthu<br>220                                              |
| 29                       | 220   | Private    | dry | 0.020235  | P. Narsanna S/o. Naganna<br>220                                                  |
| 30                       | 234   | Private    | dry | 0.0303526 | MD. Abidsha S/o. Mannansha<br>234                                                |
| 31                       | 238   | Private    | dry | 0.0303525 | Godhavari bai W/o. Madavrao<br>238                                               |
| 32                       | 245   | Private    | dry | 0.060705  | Hanmanthu S/o. Balaboi<br>245                                                    |
| 33                       | 248   | Private    | dry | 0.020235  | Naganna S/o. Sailu<br>248                                                        |
| 34                       | 253   | Private    | dry | 0.0303525 | Shivaboi S/o. Chinnaboi<br>253                                                   |
| 35                       | 253   | Private    | dry | 0.0505875 | Sayaboi S/o. Sayaboi<br>253                                                      |
| 36                       | 262   | Private    | dry | 0.0252938 | V. Nagesh S/o. Pedda Dasharath<br>262                                            |
| 37                       | 38/2  | Private    | dry | 0.374347  | Mathineni Laxmibai W/o. Vittal Rao<br>38/2                                       |
| 38                       | 46/11 | Government | dry | 0.0025293 | A. Lingavva W/o. Ramulu<br>46/11                                                 |
| 39                       | 46/12 | Government | dry | 0.0328819 | Eearaiah S/o. Kadaiah, A. Lingavva<br>W/o. Ramulu<br>46/12                       |
| 40                       | 46/12 | Government | dry | 0.0328819 | Mashnaiah S/o. Kadaiah, Hullaiah<br>S/o. Kadaiah, Eearaiah S/o. Kadaiah<br>46/12 |
| 41                       | 46/12 | Government | dry | 0.0303525 | 1) Narsaiah S/o. Kadaiah, 2)<br>Mashnaiah S/o. Kadaiah<br>46/12                  |
| 42                       | 46/12 | Government | dry | 0.0328819 | A. Lingavva W/o. Ramulu<br>46/12                                                 |
| 43                       | 65/3  | Private    | dry | 0.0303525 | Naganath S/o. Hanmanthu<br>65/3                                                  |
| 44                       | 65/3  | Private    | dry | 0.060705  | Shivaraj S/o. Dulappa<br>65/3                                                    |
| 45                       | 65/3  | Private    | dry | 0.0101175 | Laxmi Bai W/o. Hanmanthu<br>65/3                                                 |
| 46                       | 73    | Private    | dRY | 0.0303525 | Govind S/o. Laxman<br>73                                                         |
| <b>Village: Rusegaon</b> |       |            |     |           |                                                                                  |

|                               |     |         |     |           |                                                                                                                                          |
|-------------------------------|-----|---------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47                            | 18  | Private | Dry | 0.060705  | Laxman S/o. Sayanna<br>18                                                                                                                |
| 48                            | 18  | Private | Dry | 0.0708225 | Maruthi S/o. Veeraiah<br>18                                                                                                              |
| 49                            | 18  | Private | dRY | 0.12141   | Marubai S/o. Maruthi<br>18                                                                                                               |
| 50                            | 18  | Private | dRY | 0.0708225 | Sayavva W/o. Hanmanthu<br>18                                                                                                             |
| 51                            | 18  | Private | dRY | 0.0708225 | Others<br>18                                                                                                                             |
| 52                            | 71  | Private | Dy  | 0.1720001 | 1) Hanmanth Rao S/o. Shivaram 2) Laxmi Bai W/o. Sangram 3) Prabhu S/o. Naganna 4) Lingaram S/o. Lachebu 5) Abdul Sayedd S/o. Sukru<br>71 |
| 53                            | 75  | Private | Dry | 0.055925  | Shivarajpatel S/o. Revanth Patel<br>75                                                                                                   |
| 54                            | 75  | Private | Dry | 0.0401513 | Jadav Ashok S/o. Neevarthi<br>75                                                                                                         |
| 55                            | 75  | Private | Dry | 0.0573591 | Khyathamwar Sayavva W/o. Chinna Gangaram<br>75                                                                                           |
| 56                            | 75  | Private | Dry | 0.0272456 | Khyathamwar Vittal S/o. Narsavva<br>75                                                                                                   |
| 57                            | 75  | Private | Dry | 0.001434  | Kodechera Road<br>75                                                                                                                     |
| <b>Village: Wadi Fathepur</b> |     |         |     |           |                                                                                                                                          |
| 58                            | 31  | Private | Dry | 0.343995  | Vamkari Babu Rao S/o. Monajee<br>31                                                                                                      |
| 59                            | 31  | Private | Dry | 0.3338775 | Vamkari Kamala Bai S/o. Baburao<br>31                                                                                                    |
| 60                            | 31  | Private | Dry | 0.3338775 | Vamkari Ashok S/o. Baburao<br>31                                                                                                         |
| 61                            | 31  | Private | Dry | 0.343995  | Vamkari Prakash S/o. Babu Rao<br>31                                                                                                      |
| 62                            | 31  | Private | Dry | 0.333878  | 1) Vamkari Swapana D/o. Baburao, 2) Vamkari Ashok S/o. Baburao<br>31                                                                     |
| 63                            | 32  | Private | Dry | 0.4755225 | Thakur Pramod Kumar S/o. Prem Chand<br>32                                                                                                |
| <b>Taluk: Nizamsagar</b>      |     |         |     |           |                                                                                                                                          |
| <b>Village: Brahmanpalle</b>  |     |         |     |           |                                                                                                                                          |
| 1                             | 242 | Private | dry | 1.03198   | Reserved Forest<br>242                                                                                                                   |

|    |                                    |            |     |           |                                                   |
|----|------------------------------------|------------|-----|-----------|---------------------------------------------------|
|    | <b>Village: Narsingraopalle</b>    |            |     |           |                                                   |
| 2  | 22                                 | Private    | Dry | 0.0359772 | Vadiyala Pushplatha W/o. Damodhar Reddy<br>22     |
| 3  | 22                                 | Private    | Dry | 0.0449715 | Vadiyala Damodhar Reddy S/o. Narsimha Reddy<br>22 |
| 4  | 27                                 | Government | Dry | 0.020235  | Sadupalli Shyamma W/o. Saya Goud<br>27            |
| 5  | 27                                 | Government | Dry | 0.020235  | Sadupalli Saya Goud S/o. Durga Goud<br>27         |
| 6  | 27                                 | Government | Dry | 0.020235  | Sadupalli Shanker Goud S/o. Saya Goud<br>27       |
|    | <b>Taluk: Pedda Kodapgal</b>       |            |     |           |                                                   |
|    | <b>Village: Chinna Takkadpalle</b> |            |     |           |                                                   |
| 1  | 42                                 | Private    | dRY | 0.020235  | Jyothi W/o. Pardhal<br>42                         |
| 2  | 61                                 | Private    | dRY | 0.0505875 | Andol Babu S/o. Ramgonda<br>61                    |
| 3  | 7                                  | Private    | dRY | 0.020235  | Mallesh S/o. Galappa<br>7                         |
| 4  | 7                                  | Private    | dRY | 0.101175  | Anjavva W/o. Shankar<br>7                         |
|    | <b>Village: Jagannathapalle</b>    |            |     |           |                                                   |
| 5  | 11                                 | Private    | Dry | 0.4552875 | Bansilal S/o. Jalam Singh<br>11                   |
| 6  | 11                                 | Private    | Dry | 0.2529375 | Gurudas S/o. Jormal<br>11                         |
| 7  | 3                                  | Private    | dry | 0.0303525 | Mothilal S/o. Mojiram<br>3                        |
| 8  | 4                                  | Private    | Dry | 0.0708225 | Rukminibai W/o. Yellugonda<br>4                   |
| 9  | 4                                  | Private    | Dry | 0.1517625 | Saraswathi Bai W/o. Yellugonda<br>4               |
| 10 | 4                                  | Private    | dry | 0.101175  | G. Malleshwar S/o. Gangaram<br>4                  |
| 11 | 4                                  | Private    | dry | 0.0505875 | G. Raju S/o. Gangaram<br>4                        |
| 12 | 5                                  | Private    | Dry | 0.0505875 | G. Chandar S/o. Gangaram<br>5                     |
|    | <b>Village: Pedda Kodapgal</b>     |            |     |           |                                                   |

|    |      |         |     |           |                                                     |
|----|------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------|
| 13 | 230  | Private | Dry | 0.24282   | Isamuddin S/o. Ismail<br>230                        |
| 14 | 231  | Private | Dry | 0.0708225 | Joshi Sridahar Rao S/o. Srinivas rao<br>231         |
| 15 | 232  | Private | Dry | 0.060705  | Jangam Nagabushanam s/o.Ramappa<br>232              |
| 16 | 232  | Private | Dry | 0.04047   | Jangam Basappa s/o Kantappa<br>232                  |
| 17 | 233  | Private | DRY | 0.1315275 | Chinthakindi Thonta Lingaboi S/o.<br>Sayaboi<br>233 |
| 18 | 260  | Private | Dry | 0.020235  | Janardhanreddy S/o. Lingareddy<br>260               |
| 19 | 267  | Private | Wet | 0.060705  | L.Suguna w/o Thirumalreddy<br>267                   |
| 20 | 286  | Private | Dry | 0.060705  | P. Nagamani W/o. Agam reddy<br>286                  |
| 21 | 286  | Private | Dry | 0.060705  | P. Agamreddy S/o. Bhoomreddy<br>286                 |
| 22 | 39   | Private | Dry | 0.020235  | Sunitha W/o. Narayana<br>39                         |
| 23 | 41/2 | Private | Dry | 0.0505875 | Balavva w/o Devaiah<br>41/2                         |
| 24 | 41/2 | Private | Dry | 0.0505875 | Veeresham s/o Ramulu<br>41/2                        |
| 25 | 48/2 | Private | Dry | 0.101175  | Laxmi w/o Balraj<br>48/2                            |
| 26 | 49/2 | Private | Dry | 0.12141   | Hanmanthreddy S/o. Ganapathireddy<br>49/2           |
| 27 | 49/2 | Private | Dry | 0.1315275 | Agamani W/o. Ganapathireddy<br>49/2                 |
| 28 | 495  | Private | Wet | 0.0101175 | Khaja Khan S/o. Haneef Khan<br>495                  |
| 29 | 495  | Private | Wet | 0.0101175 | Anjaboi S/o. Sayaboi<br>495                         |
| 30 | 502  | Private | Dry | 0.0151763 | Karreddy Sathyavva W/o. Badraiah<br>502             |
| 31 | 502  | Private | Dry | 0.0151763 | Chinthamani Mogulaiah S/o. Balanna<br>502           |
| 32 | 502  | Private | Dry | 0.0101175 | Kammari Pandari S/o. Madaiah<br>502                 |
| 33 | 502  | Private | Dry | 0.0101175 | Kammari Krishnamurthi S/o.                          |

|    |      |         |     |           |                                           |
|----|------|---------|-----|-----------|-------------------------------------------|
|    |      |         |     |           | Narsimhachary<br>502                      |
| 34 | 502  | Private | Dry | 0.0101175 | Kammari Ramulu S/o. Madaiah<br>502        |
| 35 | 54/2 | Private | Dry | 0.101175  | Gangareddy S/o. Rangarddy<br>54/2         |
| 36 | 55/2 | Private | Dry | 0.08094   | Gaini Sayavva w/o Ramaiah<br>55/2         |
| 37 | 55/2 | Private | Dry | 0.12141   | Chinthakindi Balaboi s/o Bhumaboi<br>55/2 |
| 38 | 59   | Private | Wet | 0.141645  | Sanga Narayana s/o Mogulaiah<br>59        |
| 39 | 59   | Private | Wet | 0.20235   | Sanga Anashayavva W/o. Narayana<br>59     |
| 40 | 60   | Private | Wet | 0.08094   | Gangaram s/o Ramaiah<br>60                |
| 41 | 62   | Private | Wet | 0.020235  | Narsimlu s/o Ramaiah<br>62                |
| 42 | 62   | Private | Wet | 0.020235  | Balram s/o Ramaiah<br>62                  |
| 43 | 62   | Private | Wet | 0.0101175 | B. Vittal s/o Ramaiah<br>62               |
| 44 | 63   | Private | Wet | 0.0050588 | Balram s/o Ramaiah<br>63                  |
| 45 | 63   | Private | Wet | 0.0050588 | Narsimlu s/o Ramaiah<br>63                |
| 46 | 63   | Private | Wet | 0.0177056 | G. Vittal s/o Ramaiah<br>63               |
| 47 | 63   | Private | Wet | 0.0177056 | G. Kashiram s/o Ramaiah<br>63             |
| 48 | 63   | Private | Wet | 0.0050588 | B. Vittal s/o Ramaiah<br>63               |
| 49 | 64   | Private | Wet | 0.0505875 | Mohanlal s/o Badalsingh<br>64             |
| 50 | 65   | Private | Dry | 0.0708225 | A.Gopal S/o. Gangaram<br>65               |
| 51 | 65   | Private | Dry | 0.111292  | Haridas S/o. Sada<br>65                   |
| 52 | 65   | Private | Dry | 0.212468  | Chanda S/o. Sada<br>65                    |
| 53 | 65   | Private | Dry | 0.141645  | Kammi bai W/o. Harilal<br>65              |

|    |                                |            |     |           |                                                                            |
|----|--------------------------------|------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Taluk: Pitlam</b>           |            |     |           |                                                                            |
|    | <b>Village: ChinnaKodapgal</b> |            |     |           |                                                                            |
| 1  | 737                            | Private    | Dry | 0.0303525 | Annaram Ramulu S/o. Gangaiah<br>737                                        |
| 2  | 765                            | Private    | Dry | 0.020235  | Z.P.H.S School Commpound Wall &<br>OP, Chakali Keshiah S/o. Balaiah<br>765 |
| 3  | 79                             | Private    | dRY | 0.020235  | T. Narayana Reddy S/o. Ramreddy<br>79                                      |
| 4  | 80                             | Private    | Dry | 0.060705  | P.Praveen Reddy S/o.<br>Venkatramreddy<br>80                               |
| 5  | 829                            | Private    | Dry | 0.0057813 | Jinna Ramulu s/o Papaiah<br>829                                            |
| 6  | 829                            | Private    | Dry | 0.0038543 | Guttameeda Vittal s/o Lalaiah<br>829                                       |
| 7  | 829                            | Private    | dry | 0.0038543 | Guttameeda Sailu s/o Lalaiah<br>829                                        |
| 8  | 829                            | Private    | dry | 0.0192715 | Kongonda Pochavva w/o Mallugonda<br>829                                    |
| 9  | 829                            | Private    | dry | 0.0038543 | Kongonda Janaki w/o Narendhar<br>829                                       |
| 10 | 829                            | Private    | dry | 0.0038543 | Guttameeda Purushotham s/o<br>Gangaiah<br>829                              |
| 11 | 829                            | Private    | dry | 0.060705  | Title dispute<br>829                                                       |
| 12 | Panadi                         | Government | Dry | 0.424935  | Cherukuri Vijaya Laxmi W/o.<br>Laxmiprasad<br>Panadi                       |
|    | <b>Village: Dharmaram</b>      |            |     |           |                                                                            |
| 13 | 138                            | Private    | Dry | 0.04047   | Pura Nagabhushanam S/o. Pedda<br>Bashaiah<br>138                           |
| 14 | 138                            | Private    | Dry | 0.04047   | Pura Vijaya W/o. Sudharshan<br>138                                         |
| 15 | 138                            | Private    | Dry | 0.04047   | Pura Shivaiah S/o. Hanmaiah<br>138                                         |
| 16 | 138                            | Private    | Dry | 0.04047   | Pura Bashetti S/o. Hanmaiah<br>138                                         |
| 17 | 139                            | Private    | Dry | 0.060705  | Kurlepu Kiskhtaiah S/o. Sayanna<br>139                                     |
| 18 | 139                            | Private    | Dry | 0.0708225 | 1) Kurlepu Ramavva W/o.<br>Lakhmaiah, 2) Kurlepu Sayavva S/o.<br>Hanmandlu |

|    |       |         |     |           |                                                 |
|----|-------|---------|-----|-----------|-------------------------------------------------|
|    |       |         |     |           | 139                                             |
| 19 | 139   | Private | Dry | 0.0303525 | Kurlepu Peeraiah S/o. Bhumaiah<br>139           |
| 20 | 139   | Private | Dry | 0.0101175 | Kurlepur Sayanna S/o. Yellaiah<br>139           |
| 21 | 141   | Private | Dry | 0.0101175 | Title Dispute<br>141                            |
| 22 | 144/2 | Private | Dry | 0.1315275 | Bagvan Ali hasan S/o. Bashumiya<br>144/2        |
| 23 | 144/2 | Private | Dry | 0.0505875 | Bagvan Naseema Begum W/o. saber<br>144/2        |
| 24 | 144/2 | Private | Dry | 0.0303525 | MD. Habeeb S/o. Ismail<br>144/2                 |
| 25 | 144/2 | Private | Dry | 0.0303525 | Indramani w/o Bandappa<br>144/2                 |
| 26 | 144/2 | Private | Dry | 0.060705  | Maibub Sab S/o. Maithab sab<br>144/2            |
| 27 | 145/2 | Private | Dry | 0.04047   | Dumpala Vittal S/o. Ramaiah<br>145/2            |
| 28 | 145/2 | Private | Dry | 0.0303525 | Dumpala Maruthi S/o. Ramaiah<br>144/2           |
| 29 | 63    | Private | Dry | 0.1315275 | Masireddy Satyamma W/o.<br>Gopalreddy<br>63     |
| 30 | 63    | Private | Dry | 0.0708225 | Gandhari Manikreddy S/o. Narayan<br>reddy<br>63 |
| 31 | 74    | Private | Dry | 0.0505875 | Maredi Gangamma W/o. Balreddy<br>74             |
| 32 | 77    | Private | Dry | 0.0910575 | Reddy Pochaiah S/o. Balraj<br>77                |
| 33 | 77    | Private | Dry | 0.0708225 | Dumpala Gangamani W/o. Pochaiah<br>77           |
| 34 | 79/2  | Private | Dry | 0.006745  | Kongonda Balgonda s/o Ramgonda<br>79/2          |
| 35 | 79/2  | Private | Dry | 0.0033725 | Rajigiri Mallugonda s/o Bumgonda<br>79/2        |
| 36 | 80/2  | Private | Dry | 0.0139082 | Rajigiri Sayavva w/o Saigonda<br>80/2           |
| 37 | 80/2  | Private | Dry | 0.0139082 | Annaram Ramulu s/o Gangaiah<br>80/2             |
| 38 | 81/2  | Private | Dry | 0.052441  | Rajgiri Laxmi W/o Anbhu Gonda                   |

|    |      |         |     |           |                                              |
|----|------|---------|-----|-----------|----------------------------------------------|
|    |      |         |     |           | 81/2                                         |
| 39 | 81/2 | Private | Dry | 0.104882  | Manik Reddy S/o Narayana Reddy<br>81/2       |
| 40 | 81/2 | Private | Dry | 0.0611811 | Rajgiri Sathavva W/o Datha Gonda<br>81/2     |
| 41 | 81/2 | Private | Dry | 0.0611811 | Rajgiri Sayavva W/o Sai Gonda<br>81/2        |
| 42 | 81/2 | Private | Dry | 0.052441  | Rajagiri Dattu gonda S/o. Saigonda<br>81/2   |
| 43 | 81/2 | Private | Dry | 0.0611811 | Gaaini Pravaiah S/o Agamaiah<br>81/2         |
| 44 | 81/2 | Private | Dry | 0.052441  | Rajgiri Laxmi W/o Ambhu Gonda<br>81/2        |
| 45 | 82/2 | Private | Dry | 0.12141   | Kummari Dattu s/o Ramulu<br>82/2             |
| 46 | 82/2 | Private | Dry | 0.0050588 | Chakali Sailu s/o Ramaiah<br>82/2            |
| 47 | 82/2 | Private | Dry | 0.1315275 | Chakali Bagaiah s/o Ramaiah<br>82/2          |
| 48 | 82/2 | Private | DRY | 0.1264688 | Manik reddy s/o Narayana reddy<br>82/2       |
| 49 | 83   | Private | Dry | 0.263055  | Mangali Gangamani w/o Laxmaiah<br>83         |
| 50 | 84   | Private | Dry | 0.04047   | Kurlepu Peeraiah s/o Bhumaiah<br>84          |
| 51 | 84   | Private | Dry | 0.0303525 | Kurlepu sailu s/o Yellaiah<br>84             |
| 52 | 85/2 | Private | Dry | 0.08094   | Vittugonda S/o. Hanmagonda<br>85/2           |
| 53 | 85/2 | Private | DRY | 0.2529375 | Keroba s/o Maruthi rao<br>85/2               |
| 54 | 85/2 | Private | DRY | 0.2124675 | Parbugonda S/o. Maruthigonda<br>85/2         |
| 55 | 86   | Private | Dry | 0.020235  | Yellarapu Lingareddy s/o<br>Gangareddy<br>86 |
| 56 | 87/2 | Private | Dry | 0.0151763 | Kurlepu Peeraiah S/o. Bhumaiah<br>87/2       |
| 57 | 87/2 | Private | Dry | 0.0151763 | Kurlepu Sayavva W/o. Hanmanthu<br>87/2       |
| 58 | 87/2 | Private | Dry | 0.0151763 | Kurlepu Hanmavva W/o. Bachaiah<br>87/2       |
| 59 | 87/2 | Private | Dry | 0.0151763 | Kurlepu Sailu S/o. Yellaiah<br>87/2          |

|                        |      |            |              |                         |                                                        |
|------------------------|------|------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 60                     | 88/2 | Private    | Dry          | 0.0101175               | Vasari Hanmandlu S/o. Tukaram<br>88/2                  |
| 61                     | 88/2 | Private    | Dry          | 0.0101175               | Vasari Narayana S/o. Thukaram<br>88/2                  |
| 62                     | 88/2 | Private    | Dry          | 0.0505875               | Madduri Maruthi S/o. Balaiah<br>88/2                   |
| 63                     | 88/2 | Private    | Dry          | 0.0101175               | Madduri Ramulu S/o. Govindh<br>88/2                    |
| 64                     | 88/2 | Private    | Dry          | 0.0505875               | Jinna Gangaram S/o. Kishtaiah<br>88/2                  |
| 65                     | 89/2 | Private    | Dry          | 0.586815                | Yellarapu Lingareddy S/o. Ganga<br>reddy<br>89/2       |
| 66                     | 90/2 | Private    | Dry          | 0.303525                | Katike Srinivas S/o. Ramulu<br>90/2                    |
| 67                     | 91/1 | Government | Dry          | 0.0910575               | Boi Gangaram S/o. Ramaiah<br>91/1                      |
| 68                     | 93/1 | Private    | Dry          | 0.111292                | Yellarapu Santhosh reddy s/o<br>Hanmanth reddy<br>93/1 |
| 69                     | 94   | Private    | Dry          | 0.0303525               | Madduri Maruthi S/o. Balaiah<br>94                     |
| <b>Village: Pitlam</b> |      |            |              |                         |                                                        |
| 70                     | 85   | Private    | dRY          | 0.101175                | G. Thirmal Reddy S/o. Srinivas<br>Reddy<br>85          |
|                        |      |            | <b>TOTAL</b> | <b>29.4696620999999</b> |                                                        |

[F. No. NHAI/PIU-HYD/NH-161/S-N-A/GC/1/2016/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.